

LIBRARY SECTION
Library No. .../0.28
Date of Receipt.....



Gaekwad's Oriental Series

No. XVII.

कवीन्द्राचार्यसूचीपत्र

KAVÎNDRÂCHÂRYA'S LIST

016
अन/क

CENTRAL LIBRARY, BARODA.

Gaekwad's Oriental Series No. XVII.

कवीन्द्राचार्यसूचिपत्रम्

KAVINDRACHARYA LIST

Edited with Introduction

BY

R. ANANTA KRISHNA SASTRY

Sastry, Central Library, Baroda.

With Foreward

BY

Dr. GANGANATHA JHA,

Principal, Government Sanscrit College, Benares.

PUBLISHED UNDER THE AUTHORITY OF THE GOVERNMENT OF
HIS HIGHNESS THE MAHARAJAH GAEKWAD.

CENTRAL LIBRARY,

BARODA.

1921.

Printed by Ramchandra Yesu Shedge, at the 'Nirnaya Sagar' Press,
23, Kolbhat Lane, Bombay.

Published by Newton M. Dutt, Acting Curator of State Libraries, Baroda,
for the Baroda Government.

FOREWORD

'The Kavindrâchârya List,' to which I am asked to write this Foreword, was taken by me to the First Session of the All-India Oriental Conference held at Poona in November 1919, to be shown to the scholars there assembled. The List particularly attracted the notice of Mr. R. A. Shastri of the Baroda Central Library, and his enthusiasm went so far as to get the List copied in one night on the very spot. Later on Mr. Shastri intimated to me the desire of the Baroda Central Library to publish this List as a separate number in the *Gaekwad's Oriental Series*, and inquired if I could undertake its editing. Owing to pressure of other work, I had to forego this honour, but I agreed to write this short Foreword as a humble token of my homage to the great scholar, a List of whose Library is now brought forth before the public by the Baroda Library. In the following few lines I have tried to bring together what little information I could gather about Kavindrâchârya.

1. His Time:—

- (a) We have some Mss. in our Library which belonged originally to his private collection. These Mss, whose names are given below, are sometimes dated. Thus the Ms. of Ruchidatta's 'Kiraṇâvaliprakâśa-Vivṛti' (Dravya section No. 171 in this List), popularly known as *Bhakti*, is dated Samvat 1600, corresponding to 1543 A. D.; and the Ms. of 'Kusumânjali-bodhini (168)' by Varadarâja is dated S'aka 1436 (= 1514 A. D.) Besides these, we have several sections of 'Nyâyanibandhaprakâśa.'

From this it follows that Kavindrâchârya, to whose Library these Mss. originally belonged, and whose name appears in bold and beautiful character on the front leaf of each of them, lived sometime after the middle of the 16th century.

- (b) This is indirect evidence. More direct proof we have in the fact that Kavindrâchârya was a contemporary of

the Moghul Emperor Shah Jehan and of Mahâmahopâdhyâya Vis'vanâtha Nyâyapanchânana, the author of 'Bhâshâparichchheda' and Nyâyasiddhântamuktâvali.' Thus he may be assigned to *the middle of the 17th century*, which is his true date.

- (c) A Ms. of Vâmana's 'Kavyâlankârasûtra' bears a seal with the name of a 'Bhandâr' and that of 'Salim'. This 'Salim' may stand for the prince of that name, better known as 'Emperor Jehangir.'

2. His Personal History:—

- (a) All that we know about his personal history may be briefly told. He was a Sannyâsin and a rich man. He had a Bhandâri named Kṛishna Bhatta.
- (b) He was a very learned man, as is evidenced by the fact that he was the head of the Pandit Community of Benares, which was considered, and rightly considered, the centre of Sanskrit culture in India. The title of 'Sarvavidyânidhâna,' which the Emperor Shah Jehan conferred upon him in recognition of his versatile genius, is a sure indication of the esteem in which he was held by his contemporaries. His taste for learning is further proved by his wonderful collection of Mss.
- (c) Both Kavindrâchârya and Kṛishna Bhatta had been inhabitants of the banks of the Godâvarî. They migrated subsequently to Benares. The cause of this migration is not known, but it was apparently political. Scholars are of opinion that the migration was due to the 'annexation of the remnants of Nizam Shahi's Dominions by Shah Jehan.'
- (d) The most important event in the life of Kavindrâchârya was this:—

In those days the Hindu people were heavily burdened with a pilgrim tax levied by the Emperor. This tax was payable by those pilgrims who came to Benares and Prayâg. Pandit

Kavindra took a bold stand and espoused the cause of the suffering people. He proceeded with a very large following on a deputation to the Emperor at Agra. He attended the Imperial Court held at Dewani Am, and pleaded his case so eloquently that, as tradition says, both the Emperor and Dara Shikoh shed tears of remorse. All the nobles present in the assembly, *viz.*, those from Irak, Iran, Punjab, Kandahar, Kashmere, Balkh, etc., were surprised at his striking eloquence. The result was that the tax was abolished and the Emperor conferred upon Kavindra the title of 'Sarvavidyânidhâna.'

In consequence of the victory, there was universal rejoicing in India. Addresses from all quarters began to pour in upon Kavindrâchârya, some praising his liberality, some his learning, and so forth. Among those addresses, more than a hundred of which are still preserved, we find one from Mahâmahopâdhyâya Vis'vanâtha Nyâyapanchânana, the famous Naiyâyika of Bengal, then residing at Benares and finally at Brindâvan.

3. History and Description of the Catalogue:—


This catalogue was obtained by our late Librarian, Mahâmahopâdhyâya V. P. Dwivedi, from a certain 'Maṭha' in Benares. Its importance may be inferred from the fact that many works named in the List are not otherwise known at all, or known only in name by references. One point deserves to be noted. The Mss. which belonged to Kavindrâchârya's collection are, so far as my personal experience goes, invariably found to be well-written and correct. All these Mss. bear on their outer leaves the names of the works and the sentence "सर्वविद्यानिधान कवीन्द्राचार्य सरस्वतीनां पुस्तकम्" in bold character.*

GANGÂNÂTH JHÂ.

* The *Fac-Simile* of a Ms. is given here below in order to find out and identify the Mss. of this Library, when Scholars search.

श्रीसर्वविद्यानिधानकवीन्द्राचार्यसरस्वतीनां संगीतरत्ननिषादरत्नकोशसुसंकल्प

Readers are referred to the Introduction of this book for further information on this point—*The Editor.*



INTRODUCTION

In my tours in search of Mss. throughout India during the last 30 years, I have been greatly impressed by the richness of the Mss. to be seen lying neglected in different places, often in the most obscure and unexpected corners. In some houses, especially in the North, I have found lists enumerating from 1000 to 3000 Mss, but without the corresponding Mss. On the other hand, in Southern India generally there are no lists preserved, and the number of Mss. does not exceed 300. The existence of the lists without the corresponding Mss. in some houses indicates that Mss.-libraries were broken up after the demise of their custodians, and Mss. were taken away by other persons who had had an eye on them during the life-time of the owners.

In order to discover the Mss. whose names are mentioned in such lists or in the works of authors whose dates range from the 8th century, it has been my hobby to induce the Indian Government and scholars to undertake systematic Mss. searches, and it is a matter of great satisfaction that they have already begun this work. But unfortunately these searches have as yet been confined mainly to large towns and well-known places, while remote and obscure villages are still left unexplored. About three years back, during my Mss. pilgrimage to Benares, some Pandits spoke to me about the 'Kavindrâchârya Library,' which flourished in the middle of the 17th century, as a library of unique importance to all kinds of scholars who came to Benares for acquiring knowledge. Since that time I began to make a careful search to find out the List of this Library, to which some old Pandits, in their conversations with me during my tours, referred now and then as having been seen by them. At last the First Oriental Conference held at Poona in November 1919 brought the goal of my search within my sight. One evening (oh! that memorable evening still so fresh and vivid in mind!) when I went to pay my respects to Dr. Gangânâth Jhâ, the veteran Sanskrit scholar whose advice I always seek in such matters, he informed me that he had brought with him the List in question to show at the Conference. The news filled me with delight. Greater still, however, was my joy when I actually beheld the List with my own eyes. My feelings cannot be described in words: the reader can only imagine them

by putting himself in my place. The same night I took a copy of the List with the help of my assistant, and, after comparing it carefully with the original, returned the List next morning to Dr. Jhâ. On the succeeding three days it was my proud privilege to read out important portions therefrom to the Curators of the Madras and Mysore 'Oriental Libraries and other visitors residing in the delegates' camp, and to urge upon their notice the great importance of tracing the rare Mss. mentioned in the 'Kavindrâchârya List.'

While I was returning from Assam, during my last official tour, I was so fortunate as to obtain at Benares Dr. Jhâ's kind permission to publish the Kavindrâchârya List in the *Gaekwad's Oriental Series* and a promise in writing that he would himself contribute a Foreword to Kavindrâchârya's life. Now as this famous List is brought to light in the *Gaekwad's Oriental Series*, I believe it to be particularly obligatory on patriotic scholars to do their utmost to find out those Mss. of the Kavindrâchârya Library which have not as yet been accounted for.

As regards the Kavindrâchârya Library itself, it is surmised that after the death of its master, it was dispersed, as Kavindrâchârya, being an ascetic, had no family or heirs. Some Mss. of this Library were secured by the Government Sanskrit Library at Benares and other public bodies. Many Mss. must have been removed to foreign countries by the foreign agencies which have made wholesale purchases of the most ancient and cherished literary treasures of India during the last 50 years. Some Kavindrâchârya Mss. have been recently acquired for the Baroda Central Library. Had I but seen this List earlier, I should certainly have succeeded in acquiring many more. Only the other day, in September 1920, when I was at Saugar, (C. P.), I had the good luck to come accidentally across some Sangîta Mss. belonging to Kavindrâchârya, in the house of Mr. G. V. Shrikhande, retired District Judge. When I drew the attention of this gentleman to their historical value, he was kind enough to agree promptly to my taking them to Baroda and preserving them in the Central Library. I take this opportunity of thanking Mr. Shrikhande for this kindness and for his appreciation of the work of preserving ancient record undertaken by H. H. the Maharajah Gaekwad.

Again on another recent occasion, when at Surat, I saw in one widow's house another Ms. belonging to the Kavindrâchârya collection. It has at the end a verse, which, when rendered into English, reads as follows;—

' In the blessed year of 1713 (1657 A. D.) in the month of *Arjuna* (March & April) on the fifth day of the bright fortnight on Tuesday, by me, named Shrikantha, was copied *DHARMA PRAVRITTI* in the Kavindra house.'
(No. 10544 Baroda Library.)

I need not say that this Ms. was at once secured for the Baroda Central Library. A feeling of remorse creeps over me whenever I think of many such opportunities which I must have lost during the last thirty years of my Mss. search-work, by neglecting to trace the Kavindrâchârya Mss. owing to my own ignorance of the importance of this collection.

About the Kavindrâchârya's life and his works in detail Dr. Gangânâth Jhâ himself is meagre in his Foreword. Even the famous *Catalogus Catalogorum* does not give any detailed information on the subject. So also Dr. Stein in his Jammu Library list (see page XXXIV). The word सर्वविद्यानिधान indicates possessing knowledge in all departments of Sanskrit. He might have written commentaries on Veda down to Kâvyas like the विद्यारण्य of the fourteenth century.* I find in the colophon of दशकुमारव्याख्या (No. 10784) the following :—

इति श्रीसकलशास्त्रार्थसार्थका (की) कृत शेमुखी (पी) विलास (रस) सांद्रप्रवृत्ति-
तासंख्ययशस्समुद्रविद्वत्परिषच्चंद्र यतींद्र सर्वविद्यानिधान (श्रीमत्) कवींद्राचार्यसरस्वतीकृतायां
दशकुमारव्याख्यायां पदचंद्रिकाभिधायीं विश्रुतचरितं नाम अष्टम उल्लासः ।

Also in the list of Asiatic Society of Bengal Catalogue under No. 4028 कवींद्रकल्पद्रुम

End तत्त्वज्ञानदूरीकृतमहामोहसमवगतसप्तभूमिकासमारोहमहम्मददाराशिकोहकृता +
+ + नारायणेल्यष्टाक्षरमंत्रपूर्वकाः नमस्कारास्सन्ति ॥

* We find in Vol. X *Asiatic Society of Bengal List* page 5. Mahâmahopâdhyâya Haraprasâda Sâstry, M. A., C. I. E. says :—' I have also obtained a fragment of a new commentary on the same work (Rigveda) by Sarvavidyânidhâna Kavindrâchârya which has many new features. It is full of Nyâya terms current in the Modern School of Navadvîpa'. This was written in 1892 A. D. When I requested him to give further information in this matter he informs me by a letter dated 28-2-21 that it was only six pages. . . .

A Short Notice of Some Manuscripts.

It is worth our while to take a short notice of at least some of the Mss., although it is not possible to review them all, as each subject division contains quite a wonderful collection:—

- 23—हस्तामलकभाष्य on ऋग्वेद. This was never heard of by any scholar before. I used to hear in the South that according to the traditions of the Sringeri Math, that among the four disciples of Shankarâchârya, one named हस्तामलक was asked by his Guru to write a commentary on ऋग्वेद, as he was the most learned among his four disciples. This tradition seems to have been corroborated by the appearance of the work in the present List. It is now therefore the duty of the researchers to bring this work to light.
- 24—अष्टाध्यायी: does it mean of Pânini or of some one else?
- 27 & 28—It seems that even in Kavindrâchârya's time S'rautasûtras of these schools were not to be found as up to this date.
- 30—कौषीतकीसंहिता even was not known at this time.
- 35 to 38—Here there are recognised only 4 Sûtras instead of the six now known for तैत्तिरीयशाखा, the other two being वाघूल and वैखानस. Followers of this S'âkhâ are generally to be found in the extreme South, and it seems that this S'âkhâ had not much influence on this Library. The order of the Sûtras as हिरण्यकेशी etc., indicates, I think, particularly the locality in which Kavindrâchârya lived, namely the Poona region.
- 43—अरण is really not separate from the 14 Kândas of No. 42 at present; but it is mentioned separately.
- 77—सत्याषाढ is here a खिलशाखा.
- 86 to 103—साम and अथर्ववेद. neither भाष्य nor text is mentioned. Kavindrâchârya being the follower of ऋग्वेद of आश्वलायनशाखा, the collection of works of that शाखा is specially rich.

- 104 to 165—This is a remarkable collection of Mss. on व्याकरण. 129 and 138 are repeated here. Why?
- 109—भट्टिकाव्य is included in व्याकरण and I found the same classification followed in another old list.
- 183 & 186—These two 'Hanumadiya-tikas' have been lately secured for the Baroda Library.
- 235—बौधायनवृत्ति on ब्रह्मसूत्र. This is the second list which mentions this वृत्ति. The late Dr. Oppert first brought this to the notice of the scholars in the eighties of the last century (See Vol. II. No. 4774), after it was found mentioned by Sri Rāmānujāchārya in his ब्रह्मसूत्रभाष्य. There was some doubt among scholars about the existence of this work. In this list however, we find it inserted not in a prominent place at the head of the Bhāshyas (223 to 230) as was expected, but as if it were a minor work. I therefore surmise that this बौधायन is a common author but not the बौधायन the well-known sage.
- 260—कपिलसूत्र does not occur under the common name of सांख्यसूत्र.
- 280—सांख्यसूत्र seems to be different from 260—कपिलसूत्र.
- 288 & 289—Are here shown as different works. The Baroda Library have secured lately a copy of 288 भक्तिमीमांसा.
- 339—परानन्दसूत्र—This was secured during my recent Assam tour and is now undertaken for editing in the *G. O. Series*.
- 355 to 371—मीमांसा has a poor collection. The Ms. No. 359. शास्त्रदीपिकाप्रकाश is now in the Baroda Library (No. 11226).
- 372 to 421—श्रौत collections are good. 374 बौधायन श्रौतसूत्र contains 34 प्रश्नः.
- 379—तन्त्रकृत—If it means कुमारिल or स्कन्द we find many Bhāshyas attributed to this name on ऋग्वेद, निरुक्त, मानवश्रौतसूत्र etc.

- 422—रुद्रदत्तव्याख्या on आपस्तम्ब for 32 Pras'nas. This is to be specially noted.
- 424 & 425—धूर्तस्वामि and कपर्दिभाष्य—we find for 1st and 2nd parts respectively.
- 557—देवत्राता it may be noted, is different from देवस्वामी, of 561. (In my recent tour a copy of this was secured by me).
- 572 to 574—जैमिनिश्रौतसूत्र on साम with भवत्रातभाष्य is not mentioned in this list, but the same is being now included for editing in the *G. O. Series*.
- 587 to 656—18 स्मृतिस., 18 Upasmṛti's and 34 Miscellaneous Smṛtis. It will be interesting for students of Indian Law to study this division of the Smṛtis and their classification.
- 799 to 905—In ज्योतिष almost all the old Siddhānta works are found mentioned.
- 906—1099—वैद्य Mss. are wonderful, especially on रसायन.
- 930—There are chances of our securing the धन्वन्तरि work with बृहस्पतिभाष्य in the near future.
- 1074—आयुर्वेदसूत्र may mean the one which is now being included in the *Mysore Government Oriental Series*.
- 1112—परशुरामकल्पसूत्रभाष्य is still to be discovered. Later commentators do not refer to this Bhāṣhya. It is included in the *G. O. Series*.
- 1122—तृचभास्कर. 1128—वरिवस्यारहस्य of भास्करराय and 1145 and 2019 etc., in this List and also some other Sangīta Mss. (Nos.) which were not included in this list, but belong to Kavindrāchārya, which we have secured, lead us to infer that this list might have been prepared a long time after the demise of the great scholar, when some of his Mss. must have been taken away by others and Mss. of more recent authors must have been included in the Library; because Bhāskararāya wrote ललितासहस्रनामभाष्य in 1729 A. D. (See to my Edition of Lalitāsahasranāma), while कवीन्द्राचार्य's date was about 1656. Here and there

names of some recent authors are found sprinkled in this List. This and the following Hindi quotation confirm my conjecture just referred to. I found at the end of the List the following written in Hindi by a later hand:—

‘इस सूचीपत्रमें कई टुकड़े हैं और किसी दक्षिणीने लिखाहै और सर्वविद्या (निधा)न—भी नर्मदातटसे थे सम्भव है कि खयंभी दक्षिणी भाषा जानते रहे हों ।

और पुस्तकालय बहुत विस्तृत रहा उसमें मुसलमानभी लेखक था । बनारस संस्कृत कालेजके सरखतीभवनमें वामनसूत्रवृत्ति उक्त महाशयकी है वह “अज्ञाबक्ष” लेखककी लिखी है ।’

‘This list consists of a few pieces and is written by a Deccani gentleman. Sarvavidyānidhāna also came from the banks of the Narmadā; it is therefore believed that he too knew the Deccani (Marāthī) language.

‘The Library (collection) was very large and it included some Mohammaden copyists; also, the work “Vāmana-Sūtra-vṛitti” belonging to this great man, which is now in the Sarasvatī Bhavan of the Benares Sanskrit College, was written by a copyist named Allābaksh.’

कवींद्रचंद्रोदय mentions that the Pandit was born on the Bank of Godāvarī, while the above writer says that he migrated from the banks of Narmadā. This indicates how the tradition of Kavindrāchārya’s life came to be broken and forgotten in later times.

1152 to 1156—Out of the eight Yāmala works, five are to be found in this list.

1185 to 1330—धर्मशास्त्र Mss. may be safely said to be complete.

1331 to 1366—This classification of पुराण and उपपुराण is important to us, especially for 1333 देवीभागवत and 1364 श्रीभागवत (i. e.) विष्णुभागवत which were current in Benares, the centre of learning in the 17th century.

1401—There is another भागवत by बोपदेव which is also mentioned by Srīdhara in his श्रीभागवतव्याख्या in the first verse. There are some Mss. secured for the Baroda Library on आर्षानाषेत्वविचार on श्रीभागवत which may be interesting to those who want to study this question. This list of course will strengthen the opinion of those who hold that at present विष्णुभागवत

belongs either to उपपुराण or to that of ऋषदेव. When the Ms. of the latter comes to light this question may be decided. I find recently that eight Bhāgavatas were current. I saw a गणेशभार्गवत in the possession of a s'astry in Morgaon, the sacred centre of the गणेश followers. This may easily be secured for any library by transcription.

1424 to 1448—रामायण collections are very rich.

1433—शिवरामायण. Some Sastrys say it was amalgamated into the present 'Vālmiki-Rāmāyana', as the S'aiva element is more predominant in it.

1466 to 1629—Āgamas are wonderful.

1484—2 Āgamas are in one number. 28 S'aiva-Āgama Mss. which are generally current in the extreme South are to be found in this List. This indicates the devotion of the possessor of this Library to S'iva.

1630 to 1736—107 Samhitās are mentioned. It seems that some of the independent Samhitās might have been incorporated into Purānas and Upapurānas in the long run—for instance, 1634 मानवसंहिता we find included in one of the Upapurānas of present days; 1643 मोदुल्य has now assumed the form of a great पुराण and the followers of गणेश hold it in high esteem as the Vedas; 1669, 1686 and 1731 are now to be found in the स्कान्दपुराण of the 1st division; 1729 and some others are in वायुपुराण.

1737 to 1820—Include 84 Tantras. 1771 कुलार्णव etc., are included in this List in the अवैदिक class, which arrangement some of the followers of the तन्त्र worship of the left-hand path (वाममार्ग) may not like.

2029 to 2034—On नीति. We do not find अर्थशास्त्र of कौटिलीय or its भाष्य mentioned here; they are found now only in the extreme South.


2154—अपराजितसूत्र is included for publication in the G. O. Series.

In editing the List I have endeavoured to preserve the form and arrangement of the original Ms, and have made no change or correction in any name.

As I write these lines there comes the melancholy news of the sudden death of Mr. J. S. Kudalkar, Curator of State Libraries, Baroda, and General Editor of this Series. To him I have been indebted for many suggestions in the preparation of the critical notice of the work. My thanks are also due to Mr. G. K. Shrigondekar, M. A., Sanskrit Librarian, Central Library, for carefully going over the List, which is written in the Marathi Language, and with Marathi conjunctions and grammatical forms, and for reading the proof sheets of the book.

1-4-21,
CENTRAL LIBRARY,
BARODA.

} R. ANANTAKRISHNA SHASTRY.



P. S.

During my absence on manuscript tour in the north, the Central Library, Baroda, received the loan of कवीन्द्रचन्द्रोदय and कवीन्द्रकल्पद्रुम from the Asiatic Society, Bengal, for which my sincere thanks are due to the learned Society.

My friend Mr. G. K. Shrigondekar, M. A., the Sanskrit Librarian went through both these manuscripts. He has, from a study of these, gathered the following additional information about the life of Kavindrâchârya which I gladly insert for the edification of the public:—

1 Kavindrâyachârya's birth-place seems to be पण्यभूमि *i. e.* a market-town on the banks of the Godâvari. The catalogues of the Asiatic Society of Bengal (No. 4028) and India Office Library (No. 3947) read it as पुण्यभूमि *i. e.* a sacred place. But I am of opinion that पण्यभूमि is the correct reading.

2 Kavindrâchârya seems to be a *Deccani* Brahmin belonging to ऋग्वेद, आश्वलायनशाखा for two reasons:—

(1) The whole सूत्रि is in Marathi which indicates that Kavindrâchârya, the owner of the library, must be a Deccani gentleman.

(2) Among the various प्रशस्ति to be found in कवीन्द्रचन्द्रोदय, we find in two places प्रशस्ति in Marathi verses, which indicate that Kavindrâchârya to whom all these प्रशस्ति are addressed, must be a Deccani gentleman. It must be mentioned here that Marâthi is the only vernacular used in these प्रशस्ति.

3 Kavindrâchârya after studying Veda and Vedangas, took सन्यास *i. e.* he never married; this shows his indifference towards the world especially when he was rich, strong and extremely beautiful.

4 वृसिंहाश्रम seems to be his चतुर्थाश्रम name, as दाराशिकोह addresses him as.....शंकराचार्यसमानेषु.....वृसिंहाश्रमेषु.....ॐ नमो नारायणायैत्यष्टाक्षरमंत्रपूर्वकाः नमस्काराः सन्ति.

5 कवीन्द्र, आचार्य and विद्यानिधान are three separate titles given to him on different occasions (बुद्धा विबुधाधिकतां दत्ता यस्मै कवीन्द्रसत्यदवी.) and (विजितमहीतल (?) तस्मै दत्तं विद्यानिधानपदमस्मै । आचार्याव्हयसहितं यतिबुधवृन्दै-
महीतले महितम्.)

6 People held him in high respect as there are some कवीन्द्राष्टकs written in praise of Kavindrâchârya. The Emperor of Delhi also respected him highly (दिक्षीपतिपूज्यपाद).

7 शिवरामेन्द्रसरस्वती and ब्रह्मेन्द्रसरस्वती were the two well-known संन्यासीs of his time in Benares. He had high respect for both of them and especially for the latter.

8 He seems to have equal respect towards शिव, विष्णु, विनायक देवी, etc.

9 He seems to be the guru of दाराशिकोह as will be seen from the नमस्कार of दाराशिकोह. In books on Indian history it is mentioned that दारा had one हिन्दु साधु as his guru. It must be remarked here that there are only asterisks in places of * नमो in Bengal Asiatic Society Catalogue.

10 He did not like कौमुदी of भट्टोजीदीक्षित (as there are words like प्रक्रिया विक्रियां नीता श्रीमद्भट्टोजिदीक्षितैः;.....सिध्दान्तकौमुद्यपि खण्डिताःभूत्).

11 He seems to have written मनोरमाखण्डन (on भट्टोजीदीक्षित's मनोरमा).

12 He praises the मनोरमाविमर्दन of चक्रपाणिपण्डित. Is this book the same as प्रौढमनोरमाखण्डन by चक्रपाणिदत्त, a portion of which is now published in Benares by Mahâmahopâdhyâya Vindheswari Prasad?

13 He seems to have shortened काशिका the old टीका on पाणिनी's अष्टाध्यायी.

14 There is some reference to जगन्नाथपण्डित in his कवीन्द्रकल्पद्रुम.

15 The well-known पण्डितs of his time are १ विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य २ जगन्नाथपण्डित ३ चक्रपाणिपण्डित.

16 श्रीकृष्णसरस्वती seems to be the man who collected the ग्रन्थस्तिs in book form.

17 There is a copy of कविन्द्रकव्यद्रुम in the India Office Library (No. 3947) consisting of 21 pages. The first page, as the catalogue indicates, is written in about 1650 A. D. The book, therefore, must have been written before that time. Thus Kavindrāchārya seems to have flourished in the first half of the 17th century.

18 The pilgrim tax was levied on काशी, प्रयाग, and such other places of pilgrimage. काशी and प्रयाग are often mentioned in the प्रशस्तis but in one or two places there are the words तीर्थनिचय, तीर्थजात etc. which show that at other places also pilgrim tax was levied.

25th September 1921, }
BARODA. }

R. A. SASTRY.

Table of Contents.

| | | | | Serial Number. | |
|-------|-------------------------|-----|-----|----------------|---------|
| I | ऋग्वेद | ... | ... | 1 | to 4 |
| II | आश्वलायन सूत्र | ... | ... | 5 | to 24 |
| III | ऋग्वेदशाखा | ... | ... | 25 | to 31 |
| IV | यजुर्वेद, सूत्र &c. | ... | ... | 32 | to 64 |
| V | खिल (वेद) | ... | ... | 65 | to 103 |
| VI | व्याकरण | ... | ... | 104 | to 165 |
| VII | न्याय | ... | ... | 166 | to 222 |
| VIII | वेदांत | ... | ... | 223 | to 338 |
| IX | सूत्र | ... | ... | 339 | to 341 |
| X | योग | ... | ... | 342 | to 354 |
| XI | मीमांसा | ... | ... | 355 | to 371 |
| XII | <i>A</i> श्रौत, बौधायन | ... | ... | 372 | to 421 |
| | <i>B</i> ,, आपस्तंब | ... | ... | 422 | to 434 |
| | <i>C</i> ,, हिरण्यकेशीय | ... | ... | 435 | to 458 |
| | <i>D</i> ,, कात्यायन | ... | ... | 459 | to 553 |
| | <i>E</i> ,, आश्वलायन | ... | ... | 554 | to 571 |
| | <i>F</i> ,, सामसूत्र | ... | ... | 572 | to 586 |
| XIII | स्मृति | ... | ... | 587 | to 656 |
| XIV | स्मार्त प्रकरण | ... | ... | 657 | to 798 |
| XV | ज्योतिष | ... | ... | 799 | to 905 |
| XVI | वैद्य | ... | ... | 906 | to 1099 |
| XVII | मंत्र | ... | ... | 1100 | to 1184 |
| XVIII | धर्म | ... | ... | 1185 | to 1330 |
| XIX | पुराण | ... | ... | 1331 | to 1465 |
| XX | पुराणागम | ... | ... | 1466 | to 1629 |
| XXI | संहिता | ... | ... | 1630 | to 1736 |
| XXII | तंत्र | ... | ... | 1737 | to 1820 |
| XXIII | माहात्म्य | ... | ... | 1821 | to 1870 |
| XXIV | कोश | ... | ... | 1871 | to 1898 |
| XXV | <i>A</i> कान्य | ... | ... | 1899 | to 1944 |
| | <i>B</i> अलंकार | ... | ... | 1945 | to 1962 |

Serial Number.

| | | | | | | | | |
|--------|----------|---------------|-----|-----|-----|------|----|------|
| | <i>C</i> | नाटक | ... | ... | ... | 1963 | to | 1990 |
| | <i>D</i> | संगीत | ... | ... | ... | 1991 | to | 1999 |
| | <i>E</i> | चंपू | ... | ... | ... | 2000 | to | 2010 |
| | <i>F</i> | भाण | ... | ... | ... | 2011 | to | 2016 |
| | <i>G</i> | छंद | ... | ... | ... | 2017 | to | 2024 |
| XXVI | | नास्तिक | ... | ... | ... | 2025 | to | 2028 |
| XXVII | <i>A</i> | नीति | ... | ... | ... | 2029 | to | 2034 |
| | <i>B</i> | कथा | ... | ... | ... | 2035 | to | 2049 |
| | <i>C</i> | कौतुक | ... | ... | ... | 2050 | to | 2066 |
| XXVIII | | परीक्षा | ... | ... | ... | 2067 | to | 2080 |
| XXIX | | चतुः षष्टिकला | ... | ... | ... | 2081 | to | 2144 |
| XXX | | शिल्प | ... | ... | ... | 2145 | to | 2162 |
| XXXI | | शालिहोत्र | ... | ... | ... | 2163 | to | 2173 |
| XXXII | | मतग्रंथ | ... | ... | ... | 2174 | to | 2192 |

(सूची)

सर्वविद्यानिधानकवीन्द्राचार्यसरस्वतीनाम्

(ग्रन्थसंग्रहस्य)

वेदान्तिका वाग-वरुणीतट-वनारस

वेद

- 1 ऋग्वेदान्तर्गतशाकलशाखा
भाष्यसहित सायण भाष्य
- 2 संहिताष्टक ८ ”
- 3 ब्राह्मणपञ्चिका ८ ”
- 4 अरण ५ ”

आश्वलायनसूत्र अध्याय वृत्ति

व भाष्यसहित

- 5 ” नारायणवृत्ति
- 6 ” सिद्धान्तभाष्य
- 7 ” देवत्रातभाष्य
- 8 निरुक्त भाष्यसहित
- 9 गृह्यपरिशिष्ट अध्याय ४ मान्दु-
लैभ (?) भाष्यसहित
- 10 निवित् भाष्यसहित
- 11 कुन्ताप सभाष्य
- 12 त्रैषाध्याय्य ”
- 13 पुरोऋक् ”
- 14 शिक्षा १८ ”
- 15 ज्योतिष ” नागदेव
- 16 छन्द ” हलायुध
- 17 निघण्टु ”
- 18 चरणव्यूह ”
- 19 प्रातिशाख्य ” व वृत्ति
(उव्वट व ज्योत्स्ना)
- 20 दिशनुक्रमणी—शौन (क)
- 21 बृहद्देवता ”

- 22 सर्वानुक्रम, भाष्यस०
- 23 हस्तामलककृत ऋग्वेदभाष्य
- 24 अष्टाध्यायी

ऋग्वेदान्तर्गतशाखा ४

- 25 साङ्ख्यायनीयशाखासंहिता व
ब्राह्मण
- 26 साङ्ख्यायनसूत्र अध्याय ४ सभाष्य
- 27 वाष्कलशाखीय संहिता व ब्राह्मण
- 28 माण्डुकीयशाखा-संहिता व ब्राह्मण
- 29 आश्वलायनीयसंहिता व ब्राह्मण
- 30 कौपीतकीब्राह्मण सभाष्य

ऋग्वेदाचा उपवेद

- 31 आयुर्वेद

यजुर्वेद भाष्यसहित

तैत्तिरीयशाखा

- 32 संहिता अष्टक ७
- 33 ब्राह्मण ” ३
- 34 अरण ” १०
- 35 सूत्र ४—हिरण्यकेशी
- 36 ” बोधायन
- 37 ” आपस्तम्ब
- 38 ” भरद्वाज

- 39 धर्मसूत्र
40 प्रातिशाख्य त्रिभाष्यसहित

माध्यन्दिनीशाखा

- 41 संहिता महीधर व उव्वटभाष्य
42 ब्राह्मण शतपथ (१४ काण्ड)
भाष्य-सायण
43 अरण
44 कात्यायनसूत्रभा(ष्य)-देवयाज्ञिक(क)
45 " कर्क
46 " अनन्त
47 " सङ्क्षिप्त
48 " भर्तृप
49 गृह्यसूत्रभाष्य-कर्क
50 " भर्तृप
51 " विन्ध
52 " हरिहर
53 " गदा सं.
54 सर्वानुक्रमसूत्र सभाष्य
देवयाज्ञिक
55 हौत्रसूत्रभाष्य कर्क अध्याय ५
56 प्रवराध्याय (कात्यायन)
57 स्नानसूत्र (कात्यायन) हरि, कर्क,
स्ना. दी. सं. गण. छागभा.
गंगाधर
58 श्राद्धसूत्र
59 अ... (?) च सूत्र
60 ... ? य सभाष्य

अङ्गवेद

- 61 आयु
62 शिल्पक
63 ज्योतिष
64 धातुद्योत

ऋग्वेदार्ची खिलें

- 65 वालखिलस्यखिल

- 66 राजन्यखिल
67 गारुडखिल
68 स्वस्तिकखिल
69 भौक्तिकखिल
70 भौमखिल
71 आयुष्यखिल
72 ग्राहखिल

उपखिलें

- 73 पैशाचोपखिल
74 त्रैकाण्डोपखिल
75 त्रैवेण्योपखिल
76 स्वाम्नोपखिल

यजुर्वेदार्ची खिलें

- 77 सात्याषाढ्यखिल
78 प्राच्याकाढ्यखिल
79 काढ्यखिल
80 मौद्गल्यखिल
81 वैत्रिषोडशखिल
82 नागवलयखिल

उपखिलें

- 83 औषधेयोपखिल
84 आपस्तम्बीय
85 आतोर्गामीय

सामवेदार्ची खिलें

- 86 कौथेय
87 गौतमीय
88 वानस्पत्य
89 रथन्तर
90 वैराज
91 सुश्रिय

उपखिलें

- 92 बृहदाध्य
93 बृहद्ब्रह्म

अथर्वणवेदाचीं खिलें

- 94 आङ्गिरस्य
95 अथर्वण
96 शिरःशौल्क्य
97 अरिग्रह
98 महासम्मोहन
99 चैत्य

उपखिलें

- 100 पाठ्य
101 सुसाध्य
102 अधिकर्षण
103 बलिकल्पन

व्याकरणशास्त्र ग्रन्थ संपूर्ण

- 104 महाभाष्य कैयट विवरणसहित
105 कर्मदीविवरण
106 मनोरमा शब्दरत्नसहित
107 कुचमर्दिनी
108 सुबोधिनी
109 भट्टिकाव्य टीकासहित
110 भागवृत्ति
111 लघुशब्देन्दुशेखर
112 धातुवृत्ति माधवकृत
113 कातन्त्रपरिशिष्ट
114 बृहच्छब्दरत्न
115 बृहच्छब्देन्दुशेखर
116 हरिकारिका
117 काशिकावृत्ति टीकासहित
118 पुञ्जराजी
119 कविरहस्य
120 तत्वबोधिनी
121 नन्दिकेश्वरकृतकाशिका
122 नक्षत्रमाला
123 रुण्डमाला
124 पदवाक्यरत्नाकर
125 मञ्जूषा—बृहत्
126 ” लघु

- 127 ” परमलघु
128 व्याघ्रभूतिकारिका
129 वैयाकरणभूषण
130 वैयाकरणभूषणाची टीका
हरिरामदीक्षित यांची
131 कौस्तुभ अध्याय ८
132 हेलाराजीय
133 पदमञ्जरी
134 भावप्रकाश
135 रत्नकोश
136 सीरदेववृत्ति
137 क्षीरस्वामी
138 वैयाकरणभूषण
139 भूषणसार टीकासहित
140 हेमचन्द्रव्याकरण
141 सारस्वतव्याकरण
142 कालापव्याकरण
143 शाकटायनव्याकरण
144 शाकल्यव्याकरण
145 ऐन्द्रव्याकरण
146 चान्द्रव्याकरण
147 दौर्गव्याकरण
148 नानापाठकी मञ्जूषावरील
149 ” शेखरावरील
150 ” परिभाषेन्दुशेखरावरील
151 उणादिसूत्र दशपादी वृत्तिसहित
152 कामधेनु बोपदेवकृत
153 ब्रह्मव्याकरण
154 यमव्याकरण
155 वायुव्याकरण
156 वरुणव्याकरण
157 सौम्यव्याकरण
158 वैष्णवव्याकरण
159 रुद्रव्याकरण
160 कौमारव्याकरण
161 बालभाषाव्याकरण
162 वृत्तिदीपिकाव्याकरण
163 शब्दतर्कव्याकरण

- 164 शेखरमालाव्याकरण
165 मनोरमामण्डन सुबोधिनी
व्याख्या

न्याय

- 166 गौतमसूत्र भाष्यसहित
167 कणादसूत्र भाष्यसहित
168 कुसुमाञ्जलि सटीक
169 मण्यालोक सटीक
170 गुणकिरणावलि
171 द्रव्यकिरणावलि
172 मञ्जरी
173 तर्कप्रकाश
174 तर्कामृत
175 चषक
176 मुक्तावलि
177 दिनकरी
178 पदार्थखण्डनटीका रघुदेवीय
179 चिन्तामणि खण्डचतुष्टय
180 दीधिति संपूर्ण
181 शिरोमणि जागदीशी
182 मणिमञ्जरी
183 चिन्तामणिटीका हनुमदीय
184 दीपिकाटीका—नीलकण्ठी
185 " रामखड्गभट्टी
186 " हनुमदीय
187 आलोकगदाधरी संपूर्ण
188 मूल गदाधरी
189 मूल जागदीशी
190 मूल मथुरानाथी
191 शिरोमणि मथुरानाथी
192 पदवाक्यरत्नाकर
193 बौद्धाधिकार
194 कृष्णभट्टी-गदाधरीवरील
195 " जागदीशीवरील
196 व्युत्पत्तिवाद
197 पदार्थखण्डनशिरोमणि
198 व्युत्पत्तिवादावरील कृष्णभट्टी

- 199 शब्दशक्तिप्रकाश
200 शब्दशक्तिप्रकाशावरील
कृष्णभट्टी
201 चिन्तामणि
202 दीधितिशिरोमणिकृतटीका
203 दीधितिवरील गदाधरीयटीका
204 न्यायकौस्तुभ
205 वाक्यार्थरत्नाकर
206 न्यायमालाविस्तर
207 गौरीकान्ती
208 पदार्थमाला
209 भवानन्दी
210 वादार्थग्रन्थ गदाधरकृत
व रघुदेवकृत व
जयराजकृत
जातिवाद
वीप्सावाद
नञ्वाद
आख्यातवाद
विषयतावाद
धर्मितावाद
नव्यमतवाद
सामग्रीवाद
कारकवाद
अपूर्ववाद
एवकारवाद
शक्तिवाद
परामर्शवाद
मुक्तिवाद
विवाहवाद
ईश्वरवाद
प्रागभाववाद
चिन्प्रत्ययवाद
बाधबुद्धिवाद
स्वत्ववाद
तमोवाद
सन्निकर्षवाद
211 शिरोमणि

- 212 गदाधरी
 213 वाचस्पति
 214 गदाधरी-जागदीशीवरील क्रोडें
 नारायणी
 शांकरी
 गोसावी
 चन्द्रमणी
 कालीय
 जगन्नाथीय

215 दिनकरीवरील रामरुद्रभट्टी

खण्डनग्रन्थ

- 216 खण्डनदर्पण
 217 खण्डनखण्डन वाचस्पतिकृत

खण्डनग्रन्थावरील टीका

- 218 शिरोमणि
 219 मिश्रकृत
 220 तर्कसंग्रह
 221 तर्कभाषा
 222 तर्कदीपिका

वेदान्तशास्त्र

ब्रह्मसूत्रावरील भाष्यें

- 223 शांकरभाष्य
 224 अद्वैतभाष्य माधवकृत
 225 माधवभाष्य
 226 रामानुजभाष्य
 227 बलुभाचार्यभाष्य
 228 विज्ञानाचार्यकृतभाष्य
 229 नीलकण्ठभाष्य
 230 भट्टभास्करभाष्य

वेदान्तपरिभाषा टीका

- 231 अप्पय्य दीक्षितकृत
 232 रामकृष्णी
 233 मधुसूदनी
 234 सङ्केतशारीरकसटीक

- 235 ब्रह्मसूत्रावरील बौधायनवृत्ति
 236 दैवीमीमांसाटीका भाष्यसहित
 237 न्यायरक्षामणि अप्पय्य-
 दीक्षितकृत
 238 दशोपनिषदें मतत्रयभाष्यसहित
 व टीका
 239 गीताभाष्य सटीक मतत्रयाचें
 240 पञ्चदशी सटीक
 241 सिद्धान्तबिन्दु सटीक
 242 सिद्धान्तलेश सटीक
 243 गौडब्रह्मानन्दी सटीक लघु व गुरु
 244 विवरण सटीक
 245 कल्पतरु सटीक
 246 सुरेश्वरवार्तिक सटीक
 247 ब्रह्मविद्याभरण
 248 न्यायामृत
 249 अद्वैतसिद्धि
 250 वनमाली लघु व गुरु
 251 न्यायचन्द्रिका टीकासहित
 252 वेदस्तुतीची टीका श्रुतिकल्प-
 तिका
 253 सिद्धान्तनय
 254 षण्मतदर्पण
 255 विद्यारत्नाकर
 256 रामानुजकृत शतदूषणी ?
 257 साङ्ख्यसतति ई.....कृत
 258 निरीश्वर साङ्ख्यप्रकरणी सटीक
 259 निम्बार्कमतानुसारी मञ्जूषा
 260 कपिलसूत्रभाष्य
 261 संपूर्णग्रन्थावरील आनन्दगिरि-
 टीका
 262 वेदान्तसार सटीक
 263 तरङ्गिणी मध्ववेदान्ताची
 264 सुधा माध्वाची

गीतेच्या टीका

- 265 " मधुसूदनी
 266 " श्रीधरी
 267 " सुबोधिनी

- 268 चण्डिमाहृत रामानुजीय
269 भेदधिकार सटीक

रामानुज भाष्यटीका

- 270 " श्रुतप्रकाश
271 " सितप्रकाश
272 रत्नपरीक्षाप्रदीप
273 रत्नत्रयपरीक्षाअप्ययदीक्षितकृत
274 अद्वैतमकरन्द लक्ष्मीधरकृत
सटीक
275 अष्टावक्र सटीक
276 विवेकचूडामणि
277 जीवन्मुक्ति विद्यारण्यकृत
278 चित्तप्रकाश प्रभासागर
279 साङ्ख्यतत्त्वकौमुदी वाचस्पति-
कृतटीकासहित
280 साङ्ख्यसूत्र कपिलाचार्य भाष्य-
सहित
281 उपनिषदें सुमारें १०८ नारायण-
वृत्तिसहित
282 सिद्धान्तलेश
283 सङ्क्षेपशारीरक मधुसूदनीटीका-
सहित
284 बोधसार नरहरिकृत
285 वेदान्तकतक
286 वार्त्तिकसार
287 प्रबोधसुधाकर
288 भक्तिमीमांसा
289 शाण्डिल्यसूत्र
290 शाण्डिल्यसूत्रभाष्य स्वप्नेश्वरकृत
291 " जयदेवमिश्रकृत
292 भक्तिरसायन मधुसूदनाचार्यकृत
293 शतश्लोकी शङ्कराचार्यकृतसटीक
294 सूतसंहिता सटीक
295 योगवासिष्ठ
296 नैष्कर्म्यसिद्धि
297 शिवकर्णामृत
298 तत्त्वदिवाकर-विष्णुसर्वोत्तमत्व-
वाद

- 299 गीतार्थप्रकाश
300 सिद्धान्तसिन्धु बृहत्
301 स्वात्मनिरूपण
302 महावाक्यविवेक
303 मुक्तिमुक्ताफल
304 ब्रह्मगीता
305 सिद्धान्तलक्षण
306 सिद्धान्तकेश्वारण्य (?)
307 श्रुतसंग्रह
308 व्याससूत्र
309 वाक्यवृत्ति
310 आत्मयाग
311 शुकप्रकरण
312 ...क्तिप्रकाशभास्कर
313 ...गीता
314 हरिमन्त्रावलि
315 पाखण्डखण्डन
316 वाक्यसुधा
317 ज्ञानसंन्यास
318 सनत्सुजात शंकरभाष्यसहित
319 विष्णुसहस्रनाम शंकराचार्य-
भाष्य
320 विष्णुसहस्रनामाचा.....क
व्याख्या मोक्षवृन्द
321 वसिष्ठसारयोग
322 आत्मबोध
323 सच्चिदानन्दप्रकरण
324 अज्ञानन्दबोध
325 हस्तामलक सटीक
326 चित्तप्रकाशाष्टक
327 कपिलगीता
328 द्वादशमहावाक्य
329
330 ...प्रकाश
331 ...पदार्थी
332 ज्ञानार्णव
333 तत्त्वकौस्तुभ
334 मूर्खमुखमर्दन
335 चान्द्रभाष्य

- 336 विद्यारत्नाकर
337 भेदधिकार
338 ऐणीयब्रह्ममीमांसा

सूत्रं

- 339 परमानन्दसूत्र
340 आर्षस्तवकसूत्र
341 श्रीग्रन्थ

योगशास्त्र

- 342 पातञ्जलसूत्र व्यासभाष्यसहित
343 „ भाष्याचें विवरण वाच-
स्पतिमिश्रकृत
344 पातञ्जलसूत्रवृत्ति भोजदेवकृत
345 हठप्रदीपिका
346 योगयाज्ञवल्क्य
347 ...वदेव
348 योगबीज
349 योगचिन्तामणि
350 योगमहोदधि
351 योगभास्कर
352 स्वरोदय
353 पवनविजय
354 हटप्रदीपज्योत्स्ना

मीमांसा

- 355 शाबरभाष्य
356 तन्त्रवार्त्तिक
357 शास्त्रदीपिका सोमनाथीटीकेस-
हित
358 अधिकरणरत्नमाला सटीक
359 मीमांसार्थप्रकाश सोमनाथीटी-
केसहित
360 कुमारिलभट्टकृतवार्त्तिक सटीक
361 भाट्टालङ्कार
362 विधिरसायनदूषण
363 दुप्टीका

- 364 द वी ?
365 शास्त्र(दी)पिका
366 भाट्टभास्कर
367 लौगाक्षिभास्कर
368 मीमांसाकौस्तुभ

प्राभाकरग्रन्थ

- 369 शास्त्रदीपिकाचूडामणि
370 भावदीपिका
371 वृत्तिबोध

श्रौत

- 372 शुल्वसूत्र व्याख्यानसहित
373 टीका भट्टी शुल्वसूत्रव्याख्या
374 बौधायनसूत्र समग्र प्रश्न ३४
कर्मान्तसूत्र प्रश्न ३
द्वैधसूत्र प्रश्न २
बाकीचे २९

बौधायनसूत्राच्या व्याख्या

- 375 विद्यारण्यभाष्य
376 सुबोधिनी
377 भवस्वामी
378 केशवस्वामी
379 तन्त्रकृत
380 सौत्रामणि
381 चरक
382 ऐकाहिकचातुर्मास्यप्रयोग
383 द्वादशाहप्रयोग
384 राजसूयप्रयोग
385 पौण्डरीकप्रयोग
386 अश्वमेधप्रयोग
387 महाव्रत
388 गवामयनादिसत्र
389 नक्षत्रसत्र
390 स्वर्गसत्र
391 कास्येष्टिप्रयोग

- 392 सर्वतोमुख
 393 महान्निसर्वस्व
 394 अष्टरात्र
-
- 395 सूत्रानुसारी प्रयोग आधानापा-
 सूत्र सप्तसंस्थाचयनपर्यन्त व
 द्वा...पर्यन्त
 396 दर्श गोविन्दशेषकृत
 397 ...नारायणशेषकृत
 398 वासुदेवदीक्षिताचे प्रयोग
 399 अनन्तदेवताचे प्रयोग
 400 रुद्रदेवताचे प्रयोग
 401 धोण्डभट्ट लेले यांचे प्रयोग
 402 नवहस्ताचे प्रयोग
 403 पञ्चकाठक
 404 गागाभट्टकृत आधानाचा प्रयोग
 405 विहारकारिका
 406 कल्पसारकारिका
 407 त्रिकाण्डमण्डन व्याख्यासहित
 408 पिष्टपशुमीमांसा
 409 विष्णुगूढ
 410 आहिताभ्यन्त्येष्टि
 411 उत्तरतार्तीयसूत्र
 412 चयनकारिका
 413 द्विषाहस्रचयन
 414 अपत्नीकाधानविधि
 415ड...वित्त ग्रन्थ
 416
 417
 418 रत्नमाला
 419 भावी प्रायश्चित्त
 420 अनन्तदेवकृत प्रायश्चित्तचन्द्रिका
 421 गोपालकारिका
-
- 422 आपस्तम्बसूत्र-सूत्र प्रश्न
 ३२ व्याख्यासहित रुद्रदत्त
 423 " रामाण्डार
 424 " धूर्त्तस्वामी
 425 " कपर्दी

- 426 " अं...
 427
 428 शुक्लसूत्रव्याख्या सुन्दरराजीय
 429 " करविन्दीय
 430 चौण्डपभाष्य
 431 आधानापासून सप्तसंस्थापर्यन्त
 432 चयनसुधाप्रयोग

प्रायश्चित्तग्रन्थ

- 433 शतद्वयी सटीक
 434 भावी प्रायश्चित्त
-
- हिरण्यकेशीसूत्र २९ प्रश्न
 435 आधानप्रभृति प्रयोग सप्तसंस्थे-
 चे चयनसहित
 436 गोपीनाथदीक्षित
 437 सूत्रव्याख्या वैजयन्तीप्रकरण ६
 438 मातृदत्त
 439 ज्योत्स्ना
 440 वाञ्छेश्वरी पुद्गशास्त्रीकृता
 441 प्रवर्गव्याख्या पाण्डुरङ्गदीक्षित-
 कृत
 442 ... व्याख्या काशीनाथभट्टकृत
 443 प्रायश्चित्तव्याख्या द्रविडकृत

मोresh्वरदीक्षिताचे प्रयोग

- 444 द्वादशाह
 445 पौण्डरीक
 446 अश्वमेध
 447 राजसूय
 448 सर्वतोमुख
 449 गवामयनाद्युत्तरकृत
 450 काम्येष्टि
 451 नक्षत्रसत्र
 452 आधान
 453 कौकिलसौत्रामणि व चरक
 454 काठक
 455 स्वर्गसत्र

- 456 काशीनार्थभट्ट अभ्यंकरकृत
चयनप्रयोग
457 गणेशदीक्षितकृतचयनप्रयोग
458 गणेशदीक्षितकृत प्रश्यञ्चित्तविव-
रण

कात्यायनसूत्र श्रौतप्रकरण
व स्मार्त

सूत्र पूर्वार्ध उत्तरार्ध व्याख्यासहित
अध्याय २६ व गृह्यसूत्र व्या-
ख्यासहित अध्याय ३

- 459 कर्क
460 देवयाज्ञिक
461 संप्रदाय
462 काशीदीक्षित
463 मिश्र
464 वासुदेवभाष्य
465 देवभूति

प्रयोग

- 466 देवयाज्ञिकपद्धति पूर्वोत्तरार्ध-
सहित
467 मिश्रप्रयोग सप्तसंस्थांवरील
468 पद्मनाभ पूर्वार्धउत्तरार्धांवरील
469 देवभूति पूर्वार्धउत्तरार्धांवरील
470 दीपिका पूर्वार्धउत्तरार्धांवरील
471 मिश्राचा प्रयोग पूर्वार्धउत्तरार्धा-
वरील
472 देवभद्राचा प्रयोग
473 प्रयोगदर्पण
474 प्रयोगरत्न
475 प्रयोगनरसिंह
476 प्रयोगगङ्गाधर
477 स्मार्तोल्लास
478 सर्वानुक्रमभाष्य
479 यज्ञपार्श्वीयपरिशिष्ट
480 रुद्रकल्पद्रुम
481 रेणुकाकारिका व प्रयोग

सूत्रभाष्यै श्रौत व स्मार्तोवरील

- 482 भर्तृयज्ञ
483 गङ्गाधर
484 हरिहर
485 हरिस्वामी
486 गर्ग
487 जयराम
488 पितृभूति
489 अनन्तभट्ट
- 490 श्रौतोल्लास
491 हौत्रसूत्र भाष्यसहित
492 प्रायश्चित्तसूत्रभाष्य पद्धति-
सहित
493 प्रवराध्याय भाष्यसहित
494 श्रीधरकृतप्रवरनिर्णय
495 ज्ञानसूत्र भाष्यसहित
496 श्राद्धसूत्र भाष्यसहित
497 श्राद्धकाशिका
498 प्रतिज्ञासूत्र भाष्यसहित
499 सदाचाराह्निक
500 अनन्ताह्निक
501 प्रतिष्ठादर्पण
502 प्रतिष्ठाशिरोमणि
503 केशवभट्टकृत अन्त्येष्टिप्रयोग
504 अन्त्येष्टिशिरोमणि व पर्वनिर्णय
शिवप्रसादभट्टकृत
505 रुद्रभाष्य
506 महीधरभाष्य संहितेवरील
507 श्रौतकारिका
508 पितृमेधपद्धति स्मार्त
509 श्राद्धप्रकाश
510 कात्यायनोक्त पर्जन्यवृष्टि
511 कात्यायनोक्त वापीकूपतडागा-
दुरसर्ग
512 महादेवदीक्षितकृत दर्शपूर्णमा-
सादि द्वादशाहान्तपद्धति
513 नवकण्डिकाभाष्य गदाधरकृत
514 काशीदीक्षितभाष्य नवकण्डिका

- 515 कर्कोपाध्यायकृत ज्ञानसूत्रभाष्य
 516 प्रतिज्ञासूत्रभाष्य
 517 वासुदेवपद्धति स्मार्त्तावरील
 ३ काण्डे
 518 रत्नेश्वरकृत मिश्रस्मार्त्तप्रकरण
 519 सौत्रामणि आदिकरून उत्तर-
 संस्था कात्यायनसूत्राच्या
 520 चातुर्मास्यहौत्रपद्धति कात्यायन
 521 श्रौतनृसिंह कात्यायनाचा
 शालाकर्म
 522 नवकण्डिकासूत्रभाष्य कात्यायन
 523 गोपीनाथविरचित प्रेतदीपिका
 524 काशीदीक्षितकृतआह्निक कात्या-
 यन
 525 रामवाजपेय सोमप्रयोग
 526 देवभद्रपाठककृत नक्षत्रसूत्र-
 प्रयोग
 527 कात्यायनपरिशिष्ट
 528 रत्नगुम्फ श्रौतप्रकरण
 529 यजुर्वेदभ विट्ठलदीक्षितकृत
 530 गोविन्दकण्वकाशीस्थविरचित
 स्मार्त्ताधानपद्धति
 531 गोमती गोवाल विश्वनाथदेवीय
 अन्त्येष्टि
 532 कण्वकण्ठाभरण
 533 रत्नगुम्फ श्रौतावरील
 534 गणपतिरावलकृत पर्वनिर्णय
 535 वैद्यनाथमिश्र सप्तसंस्था
 536 यजुर्विधान
 537 यजुर्मञ्जरी
 538 आहिताग्नेः अनेकभार्याविचार
 539 आहिताग्निमरणविषयी कात्या-
 यन
 540 शाखाच्छेदनादि
 541 शुल्बसूत्रभाष्य देवकृत कात्यायन
 542 इष्टिमन्त्रविचार कात्यायनशा-
 खेचा
 543 मन्त्रार्थदीपिकान्याख्या

- 544 सोमयाजीनियम
 545 नागेशभट्टकृत पर्वनिर्णय
 546 दाक्षायणयज्ञ
 547 मुरारिकृत इष्टिकानिर्णय
 548 मित्राग्निहोत्रीविरचित कर्म-
 दीपिका
 549 प्रकृतिविकृति यागकाल
 550 दर्शपूर्णमासतन्त्र
 551 नूतनारणीस्वीकार
 552 द्विविधसमारोपविषय
 553 देवयाज्ञिकप्रयोग स्वर्गसत्र व
 नक्षत्रसत्रावरील

आश्वलायन हौत्रप्रकरण

- 554 सूत्र अध्याय १६
 555 व्याख्या—नारायणवृत्ति
 556 सिद्धान्तभाष्य
 557 देवत्रातभाष्य
 558 गाणेशवृत्ति
 559 आङ्गिला
 560 मञ्चनभट्टी
 561 देवस्वामीचें भाष्य
 562 नरसिंहकारिका
 563 हुंडीकारिका
 564 अश्वमेधसप्तहौत्र
 565 त्वाष्ट्रपशुहौत्र
 566 आधानप्रभृति सप्तसंस्था व
 उत्तरऋतुपर्यन्त प्रयोग
 मञ्जुच्या
 जगन्नाथदीक्षितकृत
 567 ब्रह्मत्वमञ्जरी
 568 भक्षमञ्जरी
 569 प्रतिगरमञ्जरी
 570 श्रौतनिर्णयमञ्जरी
 571 सप्तहौत्रमञ्जरी
 सामप्रकरण
 572 सूत्र व्याख्यासहित

- 573 द्राह्यायण धन्विभाष्यसहित
 574 लाट्यायन अग्निभाष्यसहित
 575 ताण्ड्यब्राह्मण भाष्यसहित
 576 वरदराजीयभाष्य
 577 अग्निष्टोमादि सप्तसंस्थान्त
 सामाचे प्रयोग
 578 नानाभाई
 579 गोवर्धन
 580 सर्वपृष्ठात्तोर्याम सामप्रयोग
 581 द्वादशाह
 582 पौण्डरीक
 583 सर्वतोमुख
 584 महाघ्नत
 585 गवामयनादि उत्तरऋतु
 586 सामप्रायश्चित्तप्रकरण

स्मृति

अष्टादशस्मृति लघु व बृद्ध
 सटीक

- 587 मनुस्मृति
 588 ब्रह्मस्मृति
 589 बृहस्पतिस्मृति
 590 दक्षस्मृति
 591 गौतमस्मृति
 592 धर्मस्मृति
 593 अङ्गिरःस्मृति
 594 याज्ञवल्क्यस्मृति
 मिताक्षराव्याख्यासहित
 595 प्रचेतःस्मृति
 596 शातातपस्मृति
 597 पराशरस्मृति
 598 संवर्तस्मृति
 599 उशनःस्मृति
 600 शङ्खलिखितस्मृति
 601 अत्रिस्मृति
 602 विष्णुस्मृति
 603 आपस्तम्बस्मृति
 604 हारीतस्मृति

अष्टादश उपस्मृति

- 605 जाबालि
 606 नाचिकेत
 607 स्कन्द
 608 लौगाक्षि
 609 काश्यप
 610 व्यास
 611 सनत्कुमार
 612 शन्तनु
 613 जनक
 614 व्याघ्रपाद
 615 कात्यायन
 616 जातूकर्ण्य
 617 कपिञ्जल
 618 बौधायन
 619 काणाद
 620 विश्वामित्र
 621 पैठीनसि
 622 गोभिल

कित्तास्मृति ३४

- 623 विष्णु
 624 कार्ष्णाजिनि
 625 सत्यव्रत
 626 गार्ग्य
 627 देवल
 628 जमदग्नि
 629 भारद्वाज
 630 पुलह
 631 पुलस्त्य
 632 ऋतु
 633 आत्रेय
 634 छागलेय
 635 मरीचि
 636 वत्स
 637 पराशर लघु
 638 ऋश्यश्रुङ्ग
 639 वसिष्ठ
 640 नारद

- 641 सुमन्तु
642 पितामह
643 वैजवाप
644 जैमिनि
645 षड्विंशमत
646 चतुर्विंशतिमत
647 षडशीति
648 बभ्रु
649 भार्गवी
650 सौम्या
651 बाष्कल
652 प्राजापत्य
653 पारस्कर
654 आर्श
655 ब्राह्मी
656 साङ्ख्य
-
- स्मार्त्तप्रकरणी ग्रन्थ
- 657 प्रयोगपारिजात
658 प्रयोगकल्पद्रुम
- संन्यासपद्धति
- 659 विश्वेश्वरी
660 यतिप्रकाश
661 गौडी पद्धति
662 ब्रह्मानन्दी
-
- 663 प्रयोगरत्न
664 त्रिस्थलीसेतु नारायणभट्टकृत
665 संस्कारभास्कर
666 प्रयोगार्णव
667 प्रयोगसार-संस्कार
668 ,, शान्ति
669 ,, अन्त्येष्टि
670 षोडशसंस्कारपद्धति
671 प्रतापनारसिंह सम्पूर्ण
672 विमलोदयमाला जयन्तकृत
673 प्रयोग चूडामणि
674 नागेशभट्टी

- 675 अनन्तभट्टी
676 कृष्णभट्टी
677 नारायणभट्टकृत रुद्रपद्धति
678 ,, उत्सर्ग पद्धति
679 अनन्तभट्टकृतरुद्रपद्धति
680 गणेशभट्टी
681 गृह्याग्निप्रकरण
682 गृह्याग्निसागर
683 स्मार्त्तप्रायश्चित्त कालेकृत
684 कालेकृत सप्तसंस्था
685 स्मार्त्तसूत्रावरील देवत्रातभाष्य
686 जयन्तकारिका
687 आश्वलायनगृह्यसूत्रकारिका
भाष्यासहित
दानप्रकरणी ग्रन्थ
- 688 दानप्रकाश
689 दानोद्योत-कित्ताउद्योत ११
690 दानदिनकर
691 दानखण्ड
692 दानचन्द्रिका
- देवप्रतिष्ठाग्रन्थ
- 693 त्रिविक्रमी
694 वासुदेवी
695 प्रतिष्ठासारदीपिका
696 प्रतिष्ठाकौमुदी
697 प्रतिष्ठेन्दु
- कुण्डाचे ग्रन्थ सटीक
- 698 कुण्डमार्त्तण्ड
699 कुण्डकल्पद्रुम
700 कुण्डार्क
701 कुण्डार्काची टीका चिन्तामणि
दीक्षितकृत
702 कुण्डसिद्धि
703 कुण्डेन्दु
704 कुण्डरत्न
705 कुण्डमण्डपप्रकाशिका
706 कुण्डभास्कर
707 कुण्डमण्डपपद्धति

- 708 राघवभट्टी
 709 रामवाजपेयी
 आह्निकें
 710 आचारार्क
 711 आचाररत्न
 712 आचारसार
 713 भट्टोजिदीक्षितकृत
 714 कमलाकरकृत
 715 आह्निकचन्द्रिका
 716 वैष्णवाह्निक
 717 विश्वम्भरदीक्षितकृत
 718 आह्निकमणि

- 719 काम्यवृषोत्सर्ग
 720 सहस्रभोजनविधि
 721 शतचण्डीप्रकार
 722 दानहीरावलि

श्राद्धप्रकरण

- 723 श्राद्धचन्द्रिका
 724 श्राद्धकल्पलता
 725 श्राद्धसागर
 726 श्राद्धमञ्जरी
 727 रघुनाथीयपद्धति
 728 अष्टश्राद्धपद्धति

- 729 प्रायश्चित्तप्रकरण
 730 शुद्धिविवेक
 731 शुद्धिरत्नाकर
 732 शुद्धितत्त्व
 733 प्रायश्चित्तचन्द्रिका
 734 प्रायश्चित्तमञ्जरी

कर्मविपाक

- 735 कर्मविपाकसङ्ग्रह
 736 कर्मविपाकसमुच्चय
 737 मदनमहार्णव
 738 कर्मविपाकसार
 739 सूर्यारुणसंवाद

- 740 वीरसिंहावलोक
 741 नवरात्रविधान
 742 रूपनारायण
 743 संहिताहोमविधि जटीकृत
 744 केशवभट्टकृत
 745 पवमानहोमविधि
 746 छन्दोगान्त्येष्टि
 747 साङ्ख्यायनान्त्येष्टि
 748 मणिरामभट्टकृत प्रेतक्रिया
 आश्वलायन
 749 त्रिपिण्डीश्राद्ध
 750 सन्ध्यादिपूजा
 751 वृषोत्सर्ग नारदीयप्रोक्त
 752 मल्लारिकृत खिलसूत्रव्याख्या
 753 षण्णवतिश्राद्धविचारनिर्णय
 754 प्रेतदीपिका
 755 श्राद्धप्रकाश यज्ञेश्वरकृत
 आश्वलायन
 756 स्मार्तार्धानपद्धति
 757 प्रायश्चित्तप्रकरण
 758 विवाहतिलक
 759 महार्चा
 760 कुण्डगणपति
 761 कुण्डमण्डल
 762 कुण्डरावल
 763 व्रतप्रबोध
 764 सूर्यादिमूर्त्तिपञ्चायतनप्रतिष्ठा
 765 कोटिहोमपद्धति

आपस्तम्बस्मार्त्तप्रकरण

- 766 सिंगाभट्टी
 767 वाहिनीपद्धति प्रायश्चित्तप्रकरण
 आह्निकें

- 768 वैद्यनाथ दीक्षितकृत
 769 गोवर्धन "
 770 रघुनाथ "

हिरण्यकेशी स्मार्त्तप्रकरण

- 771 गोपीनाथभट्टी

- 772 महेशभट्टी
 773 रावजीमोडककृत आह्निक
 774 महादेवभट्टी
 व्रतग्रन्थ
 775 व्रतार्क
 776 व्रतकौमुदी
 777 व्रतराज
 778 विश्वनाथदेवी अन्त्येष्टि
 779 सर्ववृषोत्सर्गप्रयोग
 780 वृषोत्सर्ग कण्वशाखी
 781 लक्षपूजाविधान
 782 आब्दिककालनिर्णय
 783 और्ध्वदेहिकपद्धति
 784 गायत्रीरहस्य
 785 संप्रदाय प्रायश्चित्त
 786 सबीज नवग्रह
 787 विश्वनाथकृत दुर्मरणप्रयोग
 788 शौनकोक्त अनावृष्टिशान्तिप्रयोग
 789 श्राद्धकाण्ड भट्टोजीदीक्षितकृत
 790 देवभद्रपाठककृत दशमुखकोटि-
 होम
 791 धर्मतत्वकाशिका आह्निक
 792 शङ्करभट्टकृत रजतमुक्ताब्जादि-
 तुलाप्रयोग
 793 विश्वनाथभट्टकृत सारशेष-
 शान्तिप्रकरण
 794 गोपीनाथाग्निहोत्रीविरचित
 स्नानदीपिका
 795 गोविन्दपण्डितकृत विष्णुशिव-
 प्रतिष्ठा
 796 दानविवेक
 797 उपनयनप्रतिप्रसवविचार
 798 देवराजकृत संस्कारप्रयोग
 सकलसन्दोह

- ज्योतिःशास्त्रप्रकरण
 799 सिद्धान्तशिरोमणि

टीका सिद्धान्तशिरोमणीच्या

- 800 मरीचि
 801 भास्करकृत
 802 सिद्धान्तसूर्योदय
 जातकखण्ड
 803 मुहूर्तग्रंथ
 804 मुहूर्तगणपति
 805 मुहूर्ततत्वटीका
 806 मुहूर्तचिन्तामणि सटीक
 807 मुहूर्तमार्त्तण्ड सटीक
 808 मुहूर्तमाला सटीक
 809 मुहूर्तरत्नमाला
 810 मुहूर्तनिचय
 811 मुहूर्ततरङ्गिणी
 संहिता सटीक
 812 वाराहीसंहिता
 813 भृगुसंहिता
 814 नारदसंहिता
 815 वसिष्ठसंहिता
 816 ज्योतिर्निबन्ध
 817 सूर्यसिद्धान्त सटीक
 818 रमलतन्त्र सटीक
 819 ग्रहलाघवटीका उदाहरणसहित
 मल्लारिटीका
 विश्वनाथकृत उदाहरण
 820 करणप्रकाश सटीक
 821 केशवकृत ग्रहकौतुक सटीक
 822 लघुचिन्तामणि सटीक
 823 बृहच्चिन्तामणि सटीक
 824 जातककेशवी उदाहरणटीका-
 सहित
 825 जातकभूषण
 826 ताजककेशवी सटीक
 827 लीलावती
 828 लीलावतीची टीका बुद्धि-
 विलासिनी

- 829 बीजगणित
 830 बीजगणिताची टीका नवाङ्कुश
 831 चमत्कारचिन्तामणि
 832 शेषलीलावती
 833 ज्योतिर्विदाभरण सटीक
 कालिदासकृत
 834 ज्ञानप्रदीप
 835 केरलशास्त्र
 836 सभाकौमुदी
 837 स्वप्नचिन्तामणि
 838 स्वप्राध्याय
 839 स्वप्राध्याय बृहस्पतिकृत
 840 भूपवल्लभ
 841 योगयात्रा वराहमिहिरकृत
 842 नरपतिजयचर्या
 843 समरसार
 844 स्वरोदय
 845 सामुद्रिक
 846 राजावली
 847 बृहद्राजावली
 848 नक्षत्रवादावली
 849 गोलानन्द सटीक
 850 पवनविजय
 851 शीघ्रबोध
 852 प्रश्नोत्तररत्नमालिका
 853 हिल्लाजजातक

अष्टादशसिद्धान्त सटीक
 सम्पूर्ण

- 854 ब्रह्मसिद्धान्त
 855 आर्यसिद्धान्त
 856 वसिष्ठसिद्धान्त
 857 अत्रिसिद्धान्त
 858 मनुसिद्धान्त
 859 पौलस्त्यसिद्धान्त
 860 रोमशसिद्धान्त
 861 व्याससिद्धान्त
 862 नारदसिद्धान्त कालिदास-
 व्याख्यासहित

- 863 शौनकसिद्धान्त
 864 भृगुसिद्धान्त
 865 च्यवनसिद्धान्त
 866 यवनाचार्यसिद्धान्त
 867 गर्गसिद्धान्त
 868 कश्यपसिद्धान्त
 869 पराशरसिद्धान्त
 870 मरीचिसिद्धान्त
 871 अङ्गिरःसिद्धान्त

कित्तासिद्धान्त

- 872 वराहमिहिरसिद्धान्त
 873 श्रीपतिसिद्धान्त
 874 सत्याचार्यसिद्धान्त
 875 भास्करसिद्धान्त
 876 लल्लसिद्धान्त
 877 ब्रह्मगुप्तसिद्धान्त
 878 बुद्धिविलास
 879 ज्योतिःकालज्ञान
 880 नित्यजातक
 881 षट्पञ्चाशिका सटीक
 882 मयूरचित्रक
 883 कल्पलता
 884 सत्पत्रिकालेखन
 885 यवनजातक
 886 वृद्धजातक
 887 नीलकण्ठीजातक उदाहरण
 व टीकासहित
 888 स्वराङ्कुश
 889 द्रव्यकिरणावलि
 890 ग्रहकुतूहल
 891 यन्त्रराज
 892 अमृतकूपिका
 893 किरणावलि
 894 गूढार्थप्रकाशिका
 895 मकरन्द
 896 विवाहवृन्दावन
 897 राजकल्पलता
 898 प्रश्नभैरव

- 899 प्रश्नसमुच्चय
900 संवित्प्रकाश
901 वैद्यनाथसिद्धान्त
902 रेणुकासिद्धान्त
903 सिद्धान्तसुन्दर
904 सिद्धान्तसूर्योदय
905 भौमसिद्धान्त

वैद्यशास्त्रप्रकरण

- 906 आयुर्वेदमहोदधि सटीक
907 अग्निवेश्यतन्त्र
908 चरक हेमाद्रिटीकासहित
909 सुश्रुत टीकासहित
910 वङ्गसेन
911 वृद्धवाग्भट
912 लघुवाग्भट व टीका
हेमाद्रिकृत
913 सर्वाङ्गसुन्दरा
914 नीमितन्त्र
915 चिकित्सामृतसागर
916 वीरसिंहावलोक
917 दत्तात्रेयकल्प
918 राजमार्त्तण्ड
919 योगचूडामणि
920 वैद्यचूडामणि
921 योगमाधव
922 नवरत्नमाला
923 महारसायनग्रन्थ
924 कल्पप्रकरण
925 अर्कप्रकाश
926 वैद्यकल्पद्रुम
927 वैद्यचन्द्रोदय सटीक
928 निदानवृत्तमाणिक्यमाला

संहिता

- 929 आत्रेयसंहिता
930 धन्वन्तरिसंहिता
931 मैत्रेयसंहिता
932 अगस्तिसंहिता

- 933 भारद्वाजसंहिता
934 जमदग्निसंहिता
935 वसिष्ठकल्प
936 कश्यपसंहिता
937 भृगुसंहिता
938 गौतमसंहिता
939 भार्गवसंहिता
940 च्यवनसंहिता
941 गार्ग्यसंहिता
942 देवलसंहिता
943 कात्यायनसंहिता
944 धौम्यसंहिता
945 काश्यपसंहिता
946 शौनकसंहिता
947 काशीराजसंहिता
948 वासुदेवसंहिता
949 कोलहसंहिता

आत्रेयशिष्याचीं तन्त्रे

- 950 अग्निवेश्यतन्त्र
951 भेडतन्त्र
952 जातूकर्ण्यतन्त्र
953 पाराशरतन्त्र
954 हारीततन्त्र
955 क्षीरपाणितन्त्र
956 तिःसटाचार्यकृततन्त्र
957 वाष्पचन्द्रतन्त्र

रसायनग्रन्थ

- 958 रसेन्द्रचिन्तामणि
959 रसरत्नाकर
960 रसरत्नसमुच्चय
961 रसाङ्कुश
962 रसेन्दुतिलक
963 भालुकीतन्त्र
964 रसावतार
965 रसपद्धति
966 भैरवतन्त्र
967 नन्दीतन्त्र
968 स्वच्छन्दभैरवतन्त्र

- 969 मन्थानभैरवतन्त्र
 970 काकचण्डीश्वरतन्त्र
 971 वासुदेवतन्त्र
 972 ऋषिशुद्धतन्त्र
 973 महादेवतन्त्र
 974 हरीश्वरतन्त्र

रसायनसिद्धान्त

- 975 आदिमसिद्धान्त
 976 चेन्द्रसेनसिद्धान्त
 977 लङ्केशसिद्धान्त
 978 विशारदसिद्धान्त
 979 कापालीसिद्धान्त
 980 मत्तमाण्डव्यसिद्धान्त
 981 भास्करसिद्धान्त
 982 सुरसेनसिद्धान्त
 983 रत्नकोश
 984 शम्भुसिद्धान्त
 985 नरवाहनसिद्धान्त
 986 गोमुखसिद्धान्त
 987 कपिलसिद्धान्त
 988 बलीसिद्धान्त
 989 नागार्जुनसिद्धान्त
 990 सुरानन्दसिद्धान्त
 991 नागबोधीसिद्धान्त
 992 यशोधनसिद्धान्त
 993 खण्डसिद्धान्त
 994 ब्रह्मसिद्धान्त
 995 गोविन्दसिद्धान्त
 996 लम्पटसिद्धान्त
 997 हरीसिद्धान्त
 998 चर्पटीसिद्धान्त
 999 तात्त्विकसिद्धान्त
 1000 बाणासुरसिद्धान्त
 1001 मुनिश्रेष्ठसिद्धान्त

- 1002 वैद्यकल्प
 1003 औषधीकल्प
 1004 तक्रपानविधि

- 1005 दुग्धपानविधि
 1006 अजीर्णमञ्जरी
 1007 पथ्यापथ्यनिर्णय
 1008 वैद्यकालज्ञान
 1009 वैद्यरहस्य
 1010 वैद्यजीवन लोलिम्बराजकृत
 1011 हिन्दुस्थानीभाषाकृत ग्रन्थ
 वैद्यक
 1012 नयनसुख
 1013 वैद्यविद्वज्जनोल्लासग्रन्थ
 हिन्दुस्थानीभाषेचा
 1014 ज्वरपराजय जयदेवकृत
 सटीक
 1015 वैद्यसार
 1016 आरोग्यमाला
 1017 नाडीपरीक्षा
 1018 वैद्यमनोरमा
 1019 त्रिमल्लकृतशतश्लोकी
 1020 तर्कभाषा
 1021 वैद्यरत्न भाषा जनार्दन-
 भट्टकृत
 1022 पद्यामृतमाला
 1023 सिद्धयोगोदय
 1024 उपचारसार
 1025 प्रयोगकण्ठाभरण

निघण्ट

- 1026 राजनिघण्ट
 1027 मदनविनोदनिघण्ट
 1028 हृदयदीपनिघण्ट
 1029 सिद्धमन्त्रनिघण्ट
 1030 वैद्यभूषणनिघण्ट
 1031 धन्वन्तरिनिघण्ट
 1032 द्रव्यरत्नाकरनिघण्ट
 1033 मदनादिनिघण्ट
 1034 रत्नाकरनिघण्ट
 1035 पथ्यापथ्यनिघण्ट
 1036 देविनिघण्ट
 1037 दिव्यनिघण्ट

- 1038 भेषजतन्त्र
 1039 रसेन्दुशेखर
 1040 द्रव्यरत्नालङ्कार
 1041 दवणग्रन्थ
 1042 वाचटग्रन्थ
 1043 रसेन्द्रोदय
 1044 रसप्रदीप
 1045 योगसार
 1046 पाकमार्त्तण्ड
 1047 कल्पनासागर
 1048 गदनिर्णय
 1049 सिद्धमन्त्रप्रकाश
 1050 वैद्यनिदान
 1051 मेथ...लतन्त्र
 1052 शालिनाश्रीग्रन्थ
 1053 इन्द्रदग्रन्थ रसायनप्रकरण

सूपशास्त्र

- 1054 भीमपाक
 1055 नलपाक
 1056 भोजनकुतूहल
-
- 1057 शूलपाणि सटीक
 1058 माधवनिदान व टीका
 1059 मधुकोश
 1060 आतङ्कदर्पण
 1061 गोविन्दाचार्यकृत रससार
 1062 रसरत्नसमुच्चय
 1063 योगरत्न
 1064 चिकित्सामहार्णव
 1065 सोमदेवकृत रसेन्द्रचूडामणि
 1066 रुचिवधूगलरत्नमाला
 1067 बृहद्वैद्यसार
 1068 वैद्यविलास
 1069 योगचिन्तामणि
 1070 भैरवप्रसादकृत रसपद्धति
 1071 रसरत्नमाला
 1072 गदनिग्रह
 1073 वृन्दमाधव

- 1074 आयुर्वेद महाभाष्यसहित
 1075 चरकाची टीका चक्रदत्ती
 1076 वाग्भट्टाची टीका चन्द्रिका
 1077 शार्ङ्गधर सटीक खण्डे ३
 1078 भावप्रकाश भवदेवमिश्र-
 कृत ग्रन्थ सम्पूर्ण
 1079 वैद्यामृत सटीक
 1080 वैद्यकुतूहल
 1081 वणारतनयकृत बालबोधग्रन्थ
 1082 चिकित्सासार लघु
 1083 अनेकार्थध्वनिमञ्जरी
 1084 लघु वैद्यसार
 1085 बोपदेवकृत शतश्लोकी
 1086 त्रिमल्लशतक
 1087 रसावतार
 1088 वाजीकरणरत्नमाला
 1089 वाजीकरणदीपिका
 1090 बृहच्चिकित्सासार
 1091 चिकित्सामृतदर्पण
 1092 स्त्रीचिकित्सामृतविलास
 1093 वाक्सेन
 1094 पथ्यापथ्यदेशविचार
 1095 हरिचक्र
 1096 वैद्यामृतसार
 1097 धातुवाद
 1098 हस्त्यायुर्वेद पालककृत
 1099 तात्पर्यदीपिका

मन्त्रशास्त्रप्रकरण

- 1100 सिद्धशाबरग्रन्थ
 1101 मेरुतन्त्रग्रन्थ
 1102 प्रपञ्चसार
 1103 बीजकोश—लघु
 1104 —गुरु
 1105 मातृकाकोश
 1106 शारदातिलक सटीक
 पदार्थादर्श
 गूढार्थदीपिका

- 1107 श्यामारहस्य
 1108 विद्यारहस्य
 1109 शक्तिसङ्गमरहस्य
 1110 सौभाग्यरत्नाकर
 1111 कुलार्णव
 1112 परशुरामसूत्रभाष्य
 1113 सिंहसिद्धान्त
 1114 " तन्त्र
 1115 मन्त्रमहोदधि सटीक
 1116 सुन्दरीमहोदय
 1117 कालीतन्त्र
 1118 लक्ष्मीतन्त्र
 1119 सरस्वतीतन्त्र
 1120 जनार्दनमहोदधि
 1121 रामार्चनचन्द्रिका
 1122 तृचभास्कर
 1123 पूर्णचन्द्रोदय
 1124 परशुरामार्चनचन्द्रिका
 1125 लिङ्गार्चनचन्द्रिका
 1126 दुर्गाभक्तितरङ्गिणी
 1127 सौन्दर्यलहरी सटीक
 1128 वरिवस्वारहस्य
 1129 त्रिपुरारहस्य
 1130 तन्त्रसार
 1131 दुर्गात्साह
 1132 लोकमोहनपञ्चरात्र
 1133 मन्त्रयोगरत्न
 1134 घण्टाकर्ण
 1135 इन्द्रजाल
 1136 स्वच्छन्दपद्धति
 1137 ताराभगवती
 1138 आकाशभैरवतन्त्र
 1139 बटुभैरवतन्त्र
 1140 गणेशतन्त्र
 1141 क्षेत्रपालतन्त्र
 1142 डामरतन्त्र
 1143 वाराहीतन्त्र
 1144 कात्यायनीतन्त्र

सप्तशतीवरील टीका

- 1145 " गुप्तवती
 1146 " नागोजिभट्टी
 1147 " शान्तनवी
 1148 " लालमणि
 1149 " नागार्जुनी
 1150 गौडपादाचार्यकृत...
 1151 चण्डीसपर्याक्रमकल्पवल्ली
 1152 रुद्रयामलतन्त्र
 1153 विष्णुयामलतन्त्र
 1154 ब्रह्मयामलतन्त्र
 1155 शिवयामल
 1156 देवीयामल
 1157 शिवार्चनचन्द्रिका
 1158 नृसिंहार्चनचन्द्रिका
 1159 नरसिंहपरिचर्या
 1160 दुर्गाचार्यचन्द्रोदय
 1161 कृष्णभक्तिचन्द्रिका
 1162 ज्ञानवल्ली स्कन्ध ५ बापु
 दीक्षितकृत
 1163 विश्वामित्रकल्प
 1164 पुरश्चरणचन्द्रिका
 1165 श्रीसूक्तविधान
 1166 मन्युसूक्तविधान
 1167 भास्कररायचन्द्रदीपिका
 1168 नवरत्नेश्वर
 1169 गायत्रीभाष्य
 1170 वसिष्ठकल्प
 1171 दत्तशाबर
 1172 उड्डीशशाबर
 1173 पद्मावती
 1174 त्रिपुरसुन्दरी
 1175 एकादशपञ्चाङ्ग
 1176 अष्टभैरवपञ्चाङ्ग
 1177 पिशाचाद्युपद्रवनिरासग्रन्थ
 1178 " यक्षध्यान मूल
 1179 शतचण्डीसहस्रचण्डीविधान
 कात्यायनोक्त

- 1180 ज्योतिष्मतीकल्प
1181 शारदातिलकोक्त श्यामभट्टकृत
गायत्रीपुरश्चरण
1182 भीमसेनविरचित सप्तशतीटीका
1183 मन्त्रशास्त्रचन्द्रिका
1184 सुदर्शनसंहितोक्त शाबरकल्प-
हनुमन्तमन्त्रव्याख्या

धर्मशास्त्रग्रन्थ

- 1185 गोविन्दार्णव
1186 दिनकरोद्योत प्रकरणे १२
1187 निर्णयामृत
1188 कालादर्श
1189 पृथ्वीचन्द्रोदय
1190 मयूख १२
1191 कौस्तुभ १२
1192 शेखर नागेशभट्टकृत १२
1193 कालनिर्णयदीपिका सटीक
1194 कालतत्त्वविवेचन
1195 माधव प्रकरणे १२
1196 तत्त्वमुक्तावलि सटीक
1197 पुरुषार्थचिन्तामणि
1198 प्रायश्चित्तमुक्तावलि सटीक
1199 निर्णयसिन्धु कृष्णभट्टी-
टीकासहित
1200 हेमाद्रि १२
1201 कल्पतरु
1202 स्मृतिचन्द्रिका
1203 विश्वादर्श सटीक
1204 अद्भुतसागर
1205 कृत्यरत्नावलि
1206 स्मृतिरत्नावलि
1207 स्मृत्यर्थसार
1208 मदनरत्न
1209 व्यवहारतत्त्व
1210 मदनपारिजात
1211 दत्तकमीमांसा
1212 दिनत्रयमीमांसा
1213 छलारी

- 1214 चक्रमीमांसा
1215 निर्णयसिन्धुवरील टीका धर्म-
नौका
सापिण्ड्यनिर्णय व गोत्रप्रवरनिर्णय
1216 ,, नागोजिभट्टकृत
1217 ,, कमलाकरभट्टकृत
1218 तिथ्यर्क
1219 वीरचिन्तामणि
1220 कमलाकरकृतग्रन्थ पूर्वक,
मन्त्रक, व्यवहारक पूर्वक(?)
1221 दानकमलाकर
1222 प्रतिष्ठाकमलाकर
1223 शान्तिकमलाकर
1224ताकमलाकर
1225 संप्रदायभास्कर
1226 द्यामुष्यायणदीपिका
1227 कुलचिकित्सा
1228 सिंहसिन्धु
1229 विधानमाला
1230 गोत्रमञ्जरी
1231 भट्टोजिदीक्षितकृत गोत्र-
प्रवरनिर्णय
1232 मातृगोत्रनिर्णय लौगाक्षिकृत
1233 विधानपारिजात
1234 जयसिंहकल्पतरु
1235 वीरमित्रोदय
1236 परशुरामप्रताप सम्पूर्ण
1237 राघवकृत शतप्रश्नलता
1238 गङ्गाभट्टी
1239 शूद्रकमलाकर
1240 शूद्राचारशिरोमणि
आशौचप्रकरणी
1241 त्रिंशच्छ्लोकी
1242 त्र्यम्बकी
1243 षडशीति सटीक
1244 भट्टोजिदीक्षित

- 1245 नागोजिभट्टकृतसापिण्ड्य-
निर्णय
- 1246 आचाररत्न सारासारविचार
- 1247 कृत्यमञ्जरी
- 1248 धर्मप्रवृत्ति
- 1249 विवादाणव
- 1250 कालचूडामणि
- 1251 गागाभट्टी
- 1252 स्मृतिसारसङ्ग्रह
- 1253 पयनियम
- 1254 स्मृतिसंग्रह
- 1255 लघुमाधव
- 1256 समयनय
- 1257 काशीक्षेत्रनिर्णय
- 1258 सम्बन्धविवेक
- 1259 आचारज्ञानार्णव
- 1260 चन्द्रिका
- 1261 धर्मतरङ्गिणी
- 1262 राजधर्मतरङ्गिणी
- 1263 वर्णाश्रमचन्द्रिका
- 1264 वाचस्पतिमिश्रकृतग्रन्थ न्याय
- 1265 न्यायलीलावती
- 1266 चतुर्वर्गचिन्तामणि
- 1267सीय
- 1268 प्रतापमार्त्तण्ड
- 1269 मूल्याध्याय
- 1270द्र
- 1271 प्रायश्चित्तरत्न
- 1272 बालाजीवैद्यकृत कालनीति
- 1273 भास्करकृत संवत्सरकृत्य
प्रकाश
- 1274 वामाचारखण्डन
- 1275 श्राद्धनिर्णय बोपदेवकृत श्लोक-
बद्धटीका
- 1276 तीर्थसार दलपतिराजकृत
- 1277 कमलाकरकृत शूद्रतत्त्व
विधवाधर्म
- 1278 कायस्थोत्पत्ति
- 1279 अनुतापरहितप्रायावेदनी-
चोच्चभाव (?)
- 1280 चान्द्रसेनी कायस्थपद्धति
- 1281 हरिहराचार्यविरचित जाति-
विवेक
- 1282 गोविन्दविरचित आशौचनिर्णय
- 1283 हनुमन्तजयन्ती
- 1284 किणयासिद्धान्त (?)
- 1285 आशीर्वादनिर्णय
- 1286 भट्टोजिदीक्षितकृत कालनि ...
- 1287 परभूचे संस्कार
- 1288 मातृगोत्रप्रवरनिर्णय
- 1289 कायस्थदीप आह्निकविधि
- 1290 देवकृत स्मृतिसार
- 1291 यमाजीपन्तकृत जातिनिर्णय
- 1292 यजुर्वेदमुख्यामुख्यविचार
व आशीर्वादप्रकरण
- 1293 गयापद्धति
- 1294 विश्वनाथदेवकृत गोत्र-
प्रवरनिर्णय
- 1295 शूलपाणि प्रायश्चित्ताध्याय
- 1296 रामभट्टविरचित आशौचनिर्णय
- 1297 तोरोकृत प्रायश्चित्तमालिका
- 1298 श्रीधरविरचित तिथिनिर्णय
- 1299 वैजनाथभट्टविरचित तिथि-
निर्णय
- 1300 भट्टोजीविरचित तिथिनिर्णय
- 1301 जीवदेवकृतदीधिति आशौच-
निर्णय
- 1302 कृष्णभट्टविरचित शुद्धि-
चन्द्रिका
- 1303 वर्णाश्रमदीपिकासापिण्ड्य-
निर्णय
- 1304गो.....
- 1305 यशोधरभट्टविरचित प्राय-
श्चित्तनिर्णय
- 1306 रामचन्द्रविरचित गोत्रप्रवर-
निर्णय

- 1307 द्वैतनिर्णय
 1308 जसवन्तभास्कर कालनिर्णय
 1309 निर्णयसार
 1310 निबन्धसार
 1311 तिथितत्त्व
 1312 अच्युताश्रमविरचित संन्यास-
 पद्धति
 1313 कायस्थोत्पत्ति दाल्भ्यकृत
 1314 नौका लक्ष्मणपाटीलविरचित
 1315 युवराज्यामिषेकप्रयोग
 1316 बुद्धिविलास
 1317 त्रिविधकायस्थोत्पत्ति नारा-
 यणविरचित
 1318 गोविन्दपण्डितविरचित
 जातिविवेक
 1319 षडशीति कौशिकविरचित
 1320 विरचित निर्णयसिद्धान्त
 सटीक

जातिप्रकरण

- 1321 जातिविवेक
 1322 आदिरहस्य
 1323 हेमाद्रिप्रबन्ध
 1324 नरसिंहपराशर
 1325 जातिदर्पण
 1326 उदीच्यप्रकाश
 1327 पञ्चसंस्कारपद्धति
 1328 धर्मतत्त्व
 1329 धर्मदीपिका
 1330 चातुर्वर्ण्यव्यवस्थापद्धति

अष्टादशपुराणें

- 1331 मार्कण्डेयपुराण
 1332 मत्स्यपुराण
 1333 देवीभागवत
 1334 भविष्यपुराण
 1335 ब्रह्माण्डपुराण
 1336 ब्रह्मपुराण
 1337 ब्रह्मवैवर्त्तपुराण
 1338 वामनपुराण

- 1339 विष्णुपुराण
 1340 वायुपुराण
 1341 नन्दिपुराण
 1342 लिङ्गपुराण
 1343 पद्मपुराण
 1344 अग्निपुराण
 1345 कूर्मपुराण
 1346 स्कन्दपुराण
 1347 गरुडपुराण
 1348 वराहपुराण

उपपुराणे

- 1349 सनत्कुमारपुराण
 1350 नारसिंहपुराण
 1351 नन्दिपुराण
 1352 दुर्वासपुराण
 1353 लघुनारदपुराण
 1354 कालिकापुराण
 1355 मानवपुराण
 1356 उशनसपुराण
 1357 ब्रह्माण्डपुराण
 1358 वारुणपुराण
 1359 कपिलपुराण
 1360 महेश्वरपुराण
 1361 साम्बपुराण
 1362 सूर्यपुराण
 1363 पराशरपुराण
 1364 श्रीभागवतपुराण
 1365 कूर्मपुराण
 1366 शिवधर्मपुराण

श्रीमद्भागवताच्या टीका

- 1367 ,, मधुसूदनी
 1368 ,, गोवर्धनी
 1369 ,, चक्रवर्ती
 1370 ,, राधावल्लभी
 1371 ,, भागवतकथा
 1372 ,, विजयध्वजी
 1373 ,, यादुपत्य
 1374 ,, श्रीनिवासतीर्थी

- 1375 " तोषिणीसार
 1376 " तोषिणी
 1377 " श्रीधरी
 1378 " सुबोधिनी
 1379 वल्लभाचार्यमतानुसारी

कल्प संपूर्ण

- 1380 विद्याधरकल्प
 1381 अध्यात्मकल्प
 1382 अप्सरःकल्प
 1383 यायातकल्प
 1384 मोहनकल्प
 1385 धर्माधारकल्प
 1386 योनिकल्प
 1387 श्वेतकल्प
 1388 सारस्वतकल्प
 1389 रथन्तरकल्प

पञ्चरात्रं

- 1390 अथर्वणपञ्चरात्र
 1391 देवीपञ्चरात्र
 1392 शिवपञ्चरात्र
 1393 विष्णुपञ्चरात्र
 1394 गणेशपञ्चरात्र
 1395 ब्रह्मपञ्चरात्र

कितापुराणें

- 1396 चतुर्धरकृत मन्त्रभागवत
 1397 " मन्त्रभारत
 1398 " मन्त्ररामायण

- 1399 सह्याद्रिखण्ड
 1400 कल्किपुराण
 1401 बोपदेवकृत भागवत
 1402 जैमिनीअश्वमेध

इतिहास

- 1403 भारत कार्शीतील शेषाचे
 घरचें
 1404 भारततात्पर्यनिर्णय

भारतावरील टीका

- 1405 " लाक्षाभरण
 1406 " मिश्रकृत
 1407 " चतुर्धरकृत

- 1408 स्कन्दपुराण
 1409 कङ्कालपुराण
 1410 मारीचपुराण
 1411 भार्गवपुराण
 1412 वह्निपुराण
 1413 देवीपुराण
 1414 आदित्यपुराण
 1415 काशिपुराण
 1416 आदिपुराण
 1417 गदापुराण
 1418 बृहस्पतिपुराण
 1419 कौमारपुराण
 1420 नन्दिपुराण

खिलपुराणें

- 1421 विष्णुधर्मोत्तर संपूर्ण
 1422 बृहद्योगवासिष्ठ
 1423 शेषधर्म

रामायणें

- 1424 अग्निवेश्य व शुकरामायण
 1425 वाल्मीकि व अध्यात्मरामायण
 1426 मृकुण्डरामायण
 1427 वसिष्ठरामायण
 1428 सङ्ग्रहरामायण
 1429 काकभृशुण्डिरामायण व
 व्यासरामायण
 1430 नाटक रामायण वाल्मीकिकृत
 1431 विभीषणरामायण
 1432 ब्रह्मरामायण
 1433 शिवरामायण
 1434 अगस्तिरामायण
 1435 शैवरामायण व
 शेषरामायण
 1436 आगमरामायण

- 1437 कर्मरामायण
 1438 स्कन्दरामायण
 1439 पौलस्त्यरामायण
 1440 अरुणरामायण
 1441 भरतरामायण
 1442 धर्मरामायण
 1443 अद्भुतरामायण
 1444 गायत्रीरामायण
 वाल्मीकिरामायणवरील टीका
 1445 „ कतक
 1446 „ तीर्थ
 1447 „ नागोजिभट्टी
 1448 „ वेदान्ताचार्यकृत

पुरावृत्तं

- 1449 हरिश्चन्द्रोदन्त
 1450 सावित्रोदन्त
 1451 पृथूदन्त
 1452 नलोदन्त
 1453 सौदासोदन्त
 1454 कौशलोदन्त
 1455 मान्धातोदन्त
 1456 रुक्माङ्गदोदन्त
 1457 दौष्यन्तोदन्त
 1458 धुन्धुमारोदन्त
 पुराणरहस्यं सम्पूर्णं
 1459 विष्णुरहस्य
 1460 शिवरहस्य
 1461 त्रिकूटरहस्य
 1462 देवीरहस्य
 1463 अथर्वणरहस्य
 1464 आदिरहस्य
 1465 भावरहस्य

पुराणागम १६५

- 1466 नारदीयपञ्चरात्रागम संपूर्ण
 1467 हयशीर्षपञ्चरात्र
 1468 कामिकाख्यागम
 1469 फारणागम
 1470 अजितागम

- 1471 अचिन्त्याह्यागम
 1472 योगिन्याख्यागम
 1473 दीप्त्यागम
 1474 सहस्राख्यागम
 1475 अनुमताख्यागम
 1476 सुप्रभेदागम
 1477 वामदेवाख्यागम
 1478 प्रपञ्चयोगागम
 1479 विश्वासकाख्यागम
 1480 अनलाख्यागम
 1481 स्वायंभुवाख्यागम
 1482 कौरवाख्यागम
 1483 मुकुरागम
 1484 बिम्बागम व चन्द्रज्ञानागम
 1485 विमलाख्यागम
 1486 प्रोज्झिताख्यागम
 1487 सिद्धागम
 1488 ललितागम
 1489 सन्तानाख्यागम
 1490 पारमेश्वरागम
 1491 सर्वोत्तरागम
 1492 किरणागम
 1493 वालुकाख्यागम

उपागम

- 1494 नारसिंहागम
 1495 भैरवोत्तरागम
 1496 उत्तराख्यागम
 1497 कारणाख्यागम
 1498 पापनाशागम
 1499 मारणागम
 1500 महेशानागम
 1501 चन्द्राह्यागम
 1502 भीमतन्त्रागम
 1503 परोद्भूतागम
 1504 प्रश्नसंहितागम
 1505 पार्वतीयागम
 1506 प्रभूतागम
 1507 घामतन्त्रागम

- 1508 पापनाशनागम
 1509 सूत्राख्यागम
 1510 चिन्त्याख्यागम
 1511 सर्वोद्भवाख्यागम
 1512 अमृताख्यागम
 1513 वेणूत्तरागम
 1514 सौत्यागम
 1515 शान्त्यागम
 1516 तुलागम
 1517 अनन्ताख्यागम
 1518 प्रभूतागम
 1519 भागाख्यागम
 1520 माधवोद्भूतागम
 1521 वस्वागम
 1522 अमिताख्यागम
 1523 संविदागम
 1524 शुद्धागम
 1525 ललितागम
 1526 इयामलागम
 1527 हस्त्यागम
 1528 जातिभेदागम
 1529 विबुधागम
 1530 अलङ्कारागम
 1531 प्रमेयागम
 1532 सुप्रशुद्धागम
 1533 अजितागम
 1534 विद्यागम
 1535 पुराणार्थागम
 1536 भास्वरागम
 1537 सुतीर्थाख्यागम
 1538 वैकृतागम
 1539 श्रीकराख्यागम
 1540 शिवभेदागम
 1541 रुद्रभेदागम
 1542 सुवर्धनागम
 1543 शूलागम
 1544 नन्दागम
 1545 रूपभेदागम
 1546 पञ्चभेदागम
 1547 प्रापञ्चिकागम
 1548 सङ्कीर्णाख्यागम
 1549 लिङ्गागम
 1550 सौम्यतन्त्रागम
 1551 अघोरतन्त्रागम
 1552 नीललोहिततन्त्रागम
 1553 प्रकरणागम
 1554 महाघोरागम
 1555 मृत्युनाशकागम
 1556 कुबेराशागम
 1557 वैनायकागम
 1558 प्रस्तराख्यागम
 1559 प्रस्फुरागम
 1560 बन्धनागम
 1561 प्रबोधख्यागम
 1562 समयागम
 1563 अमोहसंज्ञागम
 1564 शालाख्यागम
 1565 विलेखनागम
 1566 वीरागम
 1567 शकटागम
 1568 हलसंज्ञागम
 1569 भद्रागम
 1570 निश्वासकार्यागम
 1571 निश्वासनयनागम
 1572 गुह्यागम
 1573 निश्वासागम
 1574 निश्वाससारागम
 1575 सौख्यागम
 1576 सौम्यागम
 1577 अनलागम
 1578 स्वायंभूतागम
 1579 प्रश्नतन्त्रागम
 1580 प्राजापत्यागम
 1581 कालागम
 1582 महाकालागम
 1583 महारुद्रागम
 1584 कौमारागम
 1585 कालदहनागम

- 1586 मुकुटाख्यागम
 1587 मुकुटोत्तराख्यागम
 1588 चतुर्मुखाख्यागम
 1589 विम्बागम
 1590 अर्थालङ्कारागम
 1591 महायोगागम
 1592 स्तोभागम
 1593 मन्यागम
 1594 वायुतन्त्रागम
 1595 वर्गशिखरागम
 1596 तुलायोगागम
 1597 कौतुकागम
 1598 सारागम
 1599 कुतुपनिकरागम
 1600 तुलावृत्तागम
 1601 वीरभद्रतन्त्रागम
 1602 नीलभद्रतन्त्रागम
 1603 कालभेदागम
 1604 नन्दीसंहितागम
 1605 पुराणाख्यागम
 1606 देवीमतागम
 1607 नन्दीश्वरागम
 1608 स्थाणुसंहितागम
 1609 स्थिरतन्त्रागम
 1610 प्रबुद्धागम
 1611 त्रैविक्रमाख्यागम
 1612 कालसंज्ञागम
 1613 वायुलोकोत्तरागम
 1614 प्ररोचितागम
 1615 बाधुलागम
 1616 विश्वकागम
 1617 सिद्धागम
 1618 महानागागम
 1619 विश्वात्मकागम
 1620 सर्वारिष्टकागम
 1621 सर्वागम
 1622 नित्यागम
 1623 श्रेष्ठागम
 1624 वैष्णवागम

- 1625 पाशुपतागम
 1626 भागवतपञ्चरात्रागम
 1627 लोकमोहनपञ्चरात्रागम
 1628 अन्तेयागाख्यागम (?)
 1629 अप्रमेयागाख्यागम (?)

संहिताप्रकरण.

- 1630 हयग्रीवसंहिता
 1631 गर्गसंहिता
 1632 शौनकसंहिता
 1633 बौधायनसंहिता
 1634 मानवसंहिता
 1635 जाबालिसंहिता
 1636 व्याससंहिता
 1637 बार्हस्पत्यसंहिता
 1638 बाधलसंहिता
 1639 सुमन्तुसंहिता
 1640 यमसंहिता
 1641 गौतमसंहिता
 1642 प्राजापत्यसंहिता
 1643 मौद्गल्यसंहिता
 1644 वसिष्ठसंहिता
 1645 भार्गवीसंहिता
 1646 वामदेवीसंहिता
 1647 कौशिकीसंहिता
 1648 सोमसंहिता
 1649 जामदग्न्यसंहिता
 1650 जातूकर्ण्यसंहिता
 1651 जैमिनिसंहिता
 1652 जाबालिलघुसंहिता
 1653 जैलनृत्यसंहिता
 1654 नान्दीसंहिता
 1655 जाजलिसंहिता
 1656 जानुसंहिता
 1657 ज्योतिष्मतीसंहिता
 1658 जनकसंहिता
 1659 वीतिहोत्रसंहिता
 1660 शालिहोत्रसंहिता
 1661 सुहोत्रसंहिता

- 1662 वसुहोत्रसंहिता
 1663 दशहोत्रसंहिता
 1664 शतहोत्रसंहिता
 1665 यज्ञहोत्रसंहिता
 1666 लिप्तहोत्रसंहिता
 1667 प्राणहोत्रसंहिता
 1668 अत्रिसंहिता
 1669 अगस्त्यसंहिता
 1670 अनुसंहिता
 1671 अष्टावक्रसंहिता
 1672 प्रगाथसंहिता
 1673 पिङ्गलसंहिता
 1674 सुयज्ञसंहिता
 1675 विश्वामित्रसंहिता
 1676 मतङ्गसंहिता
 1677 यमसंहिता
 1678 राजलीसंहिता
 1679 वृन्दावनीसंहिता
 1680 अलुकसंहिता
 1681 वात्स्यायनीसंहिता
 1682 रुचकसंहिता
 1683 मृकुण्डसंहिता
 1684 पितृलादसंहिता
 1685 चवनसंहिता
 1686 सूतसंहिता
 1687 पिप्पलादसंहिता
 1688 कपिलसंहिता
 1689 नैध्रुवसंहिता
 1690 काश्यपसंहिता
 1691 फणीयसंहिता
 1692 शुनःशेषसंहिता
 1693 दीर्घतमासंहिता
 1694 आर्ष्यसंहिता
 1695 कुण्डन्यसंहिता
 1696 मेधातिथिसंहिता
 1697 लौगाक्षिसंहिता
 1698 कालप्रदीपिका
 1699 शुद्धदीपिका
 1700 विष्णुवृद्धसंहिता

- 1701 बत्ससंहिता
 1702 नाद्रियसंहिता
 1703 सात्वतिसंहिता
 1704 सहयुकसंहिता
 1705 कपिलसंहिता
 1706 हारीतसंहिता
 1707 कुत्ससंहिता
 1708 जयसंहिता
 1709 बभ्रुसंहिता
 1710 मनुसिद्धिसंहिता
 1711 वृद्धबाष्कलसंहिता
 1712 लघुबाष्कलसंहिता
 1713 कक्षीवान्संहिता
 1714 पूतिमाषसंहिता
 1715 शतादिसंहिता
 1716 नारायणीसंहिता
 1717 नकुलसंहिता
 1718 कालिकासंहिता
 1719 मन्त्रदीपिका
 1720 योगनारायणसंहिता
 1721 सनत्कुमारसंहिता
 1722 भूमिसंहिता
 1723 वालखिल्यसंहिता
 1724 पवनसंहिता
 1725 रत्नमाला
 1726 ज्ञानकौमुदी
 1727 सुधासार

अन्यसंहिता

- 1728 महाकालसंहिता
 1729 व्योमसंहिता
 1730 सामसंहिता
 1731 शङ्करसंहिता
 1732 वायुसंहिता
 1733 लक्ष्मीसंहिता
 1734 विद्येश्वरसंहिता
 1735 नारदसंहिता
 1736 मच्छसंहिता

वैदिकतन्त्रे

- 1737 सर्वोन्नयानतन्त्र
 1738 ज्ञानार्णवतन्त्र
 1739 अरुणेश्वरतन्त्र
 1740 विशुद्धेश्वरतन्त्र
 1741 त्रैपुरतन्त्र
 1742 महादेवतन्त्र
 1743 न्यायोत्तरतन्त्र
 1744 उत्तराम्नायतन्त्र
 1745 अनुत्तराम्नायतन्त्र
 1746 कुण्डीश्वरीतन्त्र
 1747 गुह्यागुह्यतन्त्र
 1748 कुलासारतन्त्र
 1749 मातृभेदतन्त्र
 1750 वातुलोत्तरतन्त्र
 1751 सर्ववीरातन्त्र
 1752 त्रोटलतन्त्र
 1753 त्रोटलोत्तरतन्त्र
 1754 कलासारतन्त्र
 1755 कलावादतन्त्र
 1756 योगीश्वरीतन्त्र
 1757 सर्वाम्नायतन्त्र
 1758 पूर्वाम्नायतन्त्र
 1759 दक्षिणाम्नायतन्त्र
 1760 पश्चिमाम्नायतन्त्र
 1761 ऊर्ध्वाम्नायतन्त्र
 1762 वीणातन्त्र
 1763 कुलचूडामणितन्त्र
 1764 हृद्भेदतन्त्र
 1765 वातुलतन्त्र
 1766 बहुरूपाष्टकतन्त्र
 1767 यामलाष्टकतन्त्र
 1768 किरणाख्यतन्त्र

अवैदिकतन्त्रे

- 1769 महामायाशम्बरतन्त्र
 1770 योगिनीज्वालाशंवरतन्त्र
 1771 कुलार्णवतन्त्र
 1772 महासम्मोहनतन्त्र

- 1773 रूपिकामततन्त्र
 1774 विरूपिकामततन्त्र
 1775 षोडशिकाह्वयतन्त्र
 1776 परिशिष्टानन्दतन्त्र
 1777 अमरेश्वरतन्त्र
 1778 वामजुष्टतन्त्र
 1779 कामिकतन्त्र
 1780 रूपभेदतन्त्र
 1781 पञ्चामृततन्त्र
 1782 कल्याणतन्त्र
 1783 भूताख्यतन्त्र
 1784 भैरवाष्टकतन्त्र
 1785 राजिकतन्त्र
 1786 गारुडतन्त्र
 1787 बालातन्त्र
 1788 वासुकीतन्त्र
 1789 महाकालीमततन्त्र
 1790 महावीरावतीतन्त्र
 1791 महालक्ष्मीमततन्त्र
 1792 महायोगाख्यतन्त्र
 1793 मन्त्रोत्तराख्यतन्त्र
 1794 विमलामततन्त्र
 1795 वीरावतीसखतन्त्र
 1796 ललिताज्ञानतन्त्र
 1797 महाकालीश्वरीतन्त्र
 1798 ललितामततन्त्र
 1799 चूडामणितन्त्र

उपतन्त्रे

- 1800 मन्त्रार्णवाख्यतन्त्र
 1801 मन्त्रसाराख्यतन्त्र
 1802 महाकालतन्त्र
 1803 शाम्भवतन्त्र
 1804 षट्कलामततन्त्र
 1805 मालशातन्त्र
 1806 मूलकालेश्वरीतन्त्र
 1807 औडुमहेश्वरतन्त्र
 1808 कालकेश्वरतन्त्र
 1809 मृगमुखीतन्त्र
 1810 सौभाग्यवल्लरीतन्त्र

- 1811 तालचण्डेश्वरतन्त्र
1812 हरमेखलतन्त्र
1813 चण्डरुद्रेश्वरतन्त्र
1814 कौतुकतन्त्र

अन्यतन्त्रें

- 1815 भूतडामरतन्त्र
1816 शक्तिसङ्गमतन्त्र
1817 गौतमीतन्त्र
1818 राजतन्त्र
1819 मेरुतन्त्र
1820 दत्तात्रेयतन्त्र

माहात्म्य प्रकरण

- 1821 काशीमाहात्म्य
1822 गयामाहात्म्य
1823 द्वारकामाहात्म्य
1824 वृन्दावनमाहात्म्य
1825 पाण्डुरङ्गमाहात्म्य
1826 करवीरमाहात्म्य
1827 रामेश्वरमाहात्म्य
1828 सेतुमाहात्म्य
1829 जगन्नाथमाहात्म्य
1830 तुलजामाहात्म्य
1831 व्यङ्कटेशमाहात्म्य
1832 गोकर्णमाहात्म्य
1833 महाकालमाहात्म्य
1834 कृष्णामाहात्म्य
1835 नर्मदामाहात्म्य
1836 बद्रिकामाहात्म्य
1837 गोदावरीमाहात्म्य
1838 रेणुकामाहात्म्य
1839 गङ्गामाहात्म्य
1840 कावेरीमाहात्म्य
1841 तुङ्गभद्रामाहात्म्य
1842 गण्डकीमाहात्म्य
1843 ताम्रपर्णीमाहात्म्य
1844 साभ्रमतीमाहात्म्य
1845 उडपीमाहात्म्य

- 1846 अनन्तशयनमाहात्म्य
1847 शरयूमाहात्म्य
1848 श्रीरङ्गमाहात्म्य
1849 नीरानरसिंहपुरमाहात्म्य
1850 प्रयागमाहात्म्य
1851 शाकम्भरीमाहात्म्य
1852 बारामहिन्यांचीं बारा व अधिकाचें एक एकुण...माहात्म्य
1853 सुब्रह्मण्यमाहात्म्य
1854 नैमिषारण्यमाहात्म्य
1855 गीतामाहात्म्य
1856 भीमामाहात्म्य
1857 धनुर्मासमाहात्म्य
1858 भागवतमाहात्म्य
1859 अयोध्यामाहात्म्य
1860 तुलसीमाहात्म्य
1861 कोकिलामाहात्म्य
1862 चातुर्मास्यमाहात्म्य
1863 प्रभासमाहात्म्य
1864 एकादशीमाहात्म्य
1865 मल्लारीमाहात्म्य
1866 चित्रकूटमाहात्म्य
1867 ललितोपाख्यानमाहात्म्य
1868 गोमतीमाहात्म्य
1869 माहुलीसङ्गममाहात्म्य
1870 भीमाशंकरमाहात्म्य

कोशप्रकरण

- 1871 मुकुटकोश
1872 मेदिनीकोश
1873 विश्वकोश
1874 नानार्थकोश
1875 एकाक्षरकोश
1876 अमरकोश
1877 यादवकोश व हेमचन्द्रकोश
1878 धनञ्जयकोश
1879 हलायुधकोश
1880 व्यवहारकोश
1881 धरणीकोश

- 1882 वैजयन्तीकोश
 1883 द्विरूपकोश
 1884 शब्दमालाकोश
 1885 निघण्टुकोश
 1886 केयदेवनिघण्टु
 1887 राजनिघण्टु
 1888 सिद्धमन्त्रकोश
 1889 अभिधानचिन्तामणिकोश
 सटीक
 1890 त्रिकाण्डशेषकोश
 अमरकोशाच्या टीका
 1891 „ रामाश्रमी
 1892 „ लिङ्गभट्टी
 1893 „ सुबोधिनी
 1894 शारदाकोश
 1895 विश्वप्रकाशकोश
 1896 रत्नकोश
 1897 त्रिकाण्डमण्डनकोश
 1898 कल्पतरुकोश

काव्यप्रकरण

- 1899 विदग्धमुखमण्डनकाव्य
 1900 बृहत्कथा.....
 1901 शङ्करविजय—आनन्दगिरि-
 कृत काव्य
 1902 „ विद्याधरकृत काव्य
 1903 मध्वविजय
 1904 रामानुजविजय
 1905 वल्लभविजय
 1906 सत्यनाथाभिधकाव्य
 1907 मेघसन्देश सटीक
 1908 भासिनीविलास सटीक
 1909 घटखर्पर सटीक
 1910 रामकृष्णकाव्य
 1911 पादुकासहस्र
 1912 गङ्गालहरी सटीक
 1913 पद्यामृततरङ्गिणी
 1914 महिषीशतक

- 1915 कलिचिडम्बन
 1916 हास्यशतक
 1917 कर्णामृत—शिब
 1918 „ —कृष्ण
 1919 माघ सटीक
 1920 राक्षसकाव्य
 1921 गोपीनाथसप्तशती
 1922 गणेशलहरी
 1923 अश्वघाटी
 1924 गीतगोविन्दकाव्य
 जयदेवकृत सटीक
 1925 सभाविनोद
 1926 कृष्णविलास
 1927 चोरकाव्य
 1928 हरिविलास
 1929 किरात सटीक
 1930 रघुवंश सटीक
 1931 कुमार सटीक
 1932 गोदालहरी
 1933 नैषध सटीक
 1934 भोजप्रबन्ध
 1935 कल्पित कादम्बरी
 1936 मेघविनोद
 1937 राधाविनोद
 1938 भर्तृहरि सटीक—शतकलय
 1939 शेखरकाव्य सटीक
 1940 दुर्घटककाव्य
 1941 लक्ष्मीसहस्र सटीक
 1942 विश्वगुणादर्श सटीक
 1943 सुभाषितशाङ्गधर
 1944 गोवर्धनसप्तशती सटीक

अलङ्कार

- 1945 सरस्वतीकण्ठाभरण
 1946 चित्रमीमांसा
 1947 „ व्याख्या—गदाधरी
 1948 काव्यप्रकाशचन्द्रिका सटीक
 1949 अलङ्कारसर्वस्व

- 1950 रसतरङ्गिणीनौका सटीक
 1951 कुवलयानन्द सटीक
 1952 भरतसूत्र सटीक
 1953 रसमञ्जरी सटीक
 1954 अनङ्गरङ्ग
 1955 कामसमूह
 1956 रसतरङ्गिणीनौका सटीक
 1957 वात्स्यायनसूत्रभाष्य
 1958 अमरुशतक सटीक
 1959 रतिनीतिमुकुल
 1960 कामसंमोहन
 1961 रतिरहस्य
 1962 कोलानाथिकाख्यान

नाटक प्रकरण

- 1963 सरस्वतीकण्ठाभरण नाटक
 1964 राघवपाण्डवीय
 1965 जानकीपरिणय
 1966 शाकुन्तल
 1967 कृष्णभक्तिरसायन
 1968 प्रबोधचन्द्रोदय
 1969 उत्तररामचन्द्र(?)
 1970 धर्मविजय
 1971 मुद्राराक्षस
 1972 प्रहसननाटक
 1973 भिल्लण
 1974 मालतीमाधव
 1975 प्रतापरुद्रीय
 1976 धनञ्जयनाटक
 1977 सुभद्रापरिणय
 1978 विद्वन्मोदतरङ्गिणी
 1979 शालिवाहनकृत बालभाषा
 1980 आस्थानभूषणनाटक
 1981 मुरारिनाटक
 1982 वेणीसंहरण
 1983 कंसवध
 1984 हनुमन्नाटक
 1985 विक्रमोर्वशी
 1986 हास्यनाटक नेपालकृत

- 1987 मेघद्युती
 1988 नागानन्द
 1989 विद्यापरिणय
 1990 माधवविलास

सङ्गीतप्रकरण

- 1991 सङ्गीतमुक्तावलि
 1992 सङ्गीतदर्पण
 1993 गायनरत्नाकर
 1994 गान्धर्वभेद
 1995 रागरत्नाकर
 1996 प्रकृतगान
 1997 सङ्गीतसर्वस्व
 1998 दशरूपक
 1999 शकुन्तला प्रकृतगान

चम्पूप्रकरण

- 2000 भोजचम्पू
 2001 दमयन्तीचम्पू
 2002 भारतचम्पू
 2003 रामायणचम्पू
 2004 गणेशचम्पू
 2005 नरसिंहचम्पू
 2006 नलचम्पू
 2007 मदालसाचम्पू
 2008 भागवतचम्पू
 2009 श्रीनिवासचम्पू
 2010 नीलकण्ठचम्पू

भाण

- 2011 पञ्चायुधप्रपञ्च
 2012 मुकुन्दानन्द
 2013 अनङ्गमङ्गल
 2014 अबोलभाण
 2015 अप्पय्यदीक्षितकृत भाण
 2016 पञ्चायुधप्रपञ्च त्रिविक्रम-
 पण्डितकृतभाण

छन्दःशास्त्र

- 2017 वृत्तरत्नाकर
2018 श्रुतबोध
2019 भास्कररायकृत छन्दोव्याख्या
2020 वृत्तद्युमणि
2021 छन्दोवृत्तिहलायुध
2022 छन्दोरत्नाकर
2023 वाणीभूषण
2024 छन्दोवृत्ति

नास्तिकाचे ग्रन्थ

- 2025 स्याद्वादमञ्जरी
2026 आतङ्कदर्पण
2027 खती विजय (?)
2028 नेमिनाथविजय

नीतिप्रकरण

- 2029 कामन्दकनीति
2030 औशनसनीति
2031 बार्हस्पत्यनीति
2032 न्यायलीलावती
2033 नीतिमञ्जरी
2034 शुक्रनीति

कथाभाग पूर्वाचा

- 2035 पञ्चोपाख्यान
2036 कथासागर
2037 बौधकृतकथाकौमुदी
2038 वेतालपञ्चविंशती
2039 शुकबाहाचरी
2040 बत्तीसपुतल्यांची कथा
2041 अनृतचत्वारिंशतिका
2042 लघुचाणक्य
2043 बृहच्चाणक्य
2044 सभाविनोद
2045 विद्वद्विभूषण
2046 कल्हणपण्डितराजतरङ्गिणी

- 2047 भोजराजतरङ्गिणी
2048 श्रीवरराजतरङ्गिणी
2049 प्राज्यभट्टकृतराजतरङ्गिणी

कौतुकप्रकरण

- 2050 कौतुकचिन्तामणि
2051 प्रशस्तिका
2052 कक्षपुटीकौतुक
2053 शार्ङ्गधरकौतुक
2054 नागार्जुनकौतुक
2055 निधिप्रदीपकौतुक
2056 अञ्जनप्रकारकौतुक
2057 दत्तात्रेयतन्त्रकौतुक
2058 साहित्यकुतूहलकौतुक
2059 चिन्तामणिप्रबन्धकौतुक
2060 यन्त्रचिन्तामणिकौतुक
2061 उपवनविनोदकौतुक
2062 वादीशार्ङ्गधरकौतुक
2063 शालाख्यतत्त्व
2064 कौतुकशेखर
2065 मल्लशास्त्र
2066 द्यूतशास्त्र

परीक्षा ग्रन्थप्रकरण

- 2067 शालिग्रामशताष्टक
2068 रत्नपरीक्षा
2069 शालिग्रामपरीक्षा
2070 बाणलिङ्गपरीक्षा
2071 कूपादिपरीक्षा
2072 अनूपरुद्राक्षादिपरीक्षा
2073 हस्तसञ्जीविनीपरीक्षा
2074 विवेकविलास
2075 हृदयप्रबन्ध
2076 सामुद्रतिलक
2077 कोशलसामुद्रिक
2078 उत्पलसामुद्रिक
2079 जगन्मोहनसामुद्रिक
2080 गजपरीक्षा पालकाख्यऋषिकृत

चतुःषष्टिकला ग्रन्थ

- 2081 गीत
 2082 वाद्य
 2083 नृत्य
 2084 नाट्य
 2085 आलेख्य
 2086 विशेषकच्छेद्य
 2087 तन्दुलकुसुमविकार
 2088 पुष्पास्तरण
 2089 दशनवसनाङ्गराग
 2090 मणिभूमिकाकर्म
 2091 शयनरचन
 2092 उदकघात
 2093 चित्रयोग
 2094 माल्यग्रन्थनविकल्प
 2095 शेखरापीडयोजन
 2096 नेपथ्ययोग
 2097 कर्णपत्रभङ्ग
 2098 सुगन्धयुक्ति
 2099 काव्यसमस्यापूरण
 2100 पट्टिकावेत्रवाणकल्प
 2101 तर्ककर्म
 2102 लक्षणकर्म
 2103 वास्तुविद्या
 2104 रूप्यरत्नपरीक्षा
 2105 धातुवाद
 2106 मणिरागज्ञान
 2107 आकरज्ञान
 2108 वृक्षायुर्वेदयोग
 2109 मेषकुक्कुटलावयुद्धविधि
 2110 शुक्रसारिकाप्रलापन
 2111 उत्सादन
 2112 केशमर्दनकौशल
 2113 अक्षरमुष्टिकाकथन
 2114 म्लेच्छिततर्कविकल्प
 2115 देशभाषाज्ञान
 2116 पुष्पशकटिका
 2117 भूषणयोजन
 2118 ऐन्द्रजाल

- 2119 कौमारयोग
 2120 हस्तलाघव
 2121 चित्रशाकापूपभक्तविकारक्रिया
 2122 पानकरसरागासवसंयोजन
 2123 सूचीकर्मवायककर्म
 2124 सूत्रक्रीडा
 2125 वीणाडमरुकवाद्य
 2126 प्रहेलिका
 2127 प्रतिमाला
 2128 दुर्वञ्चकयोग
 2129 पुस्तकवाचन
 2130 नाटकाख्यायिकादर्शन
 2131 निमित्तज्ञान
 2132 यन्त्रमातृकाधारणमातृका-
 संवर्धन
 2133 मानसीकाव्यक्रिया
 2134 अभिधानकोश
 2135 छन्दोज्ञान
 2136 क्रियाविकल्प
 2137 छर्दितकयोग
 2138 बह्वगोपन
 2139 ब्रूतविशेष
 2140 आकर्षक्रीडा
 2141 बालक्रीडनकविद्या
 2142 वैनायकविद्याज्ञान
 2143 वैजीयकविद्याज्ञान
 2144 वैयासिकविद्याज्ञान

शिल्पशास्त्रप्रकरण

- 2145 विश्वकर्मसंहिता
 2146 राजवल्लभ
 2147 विश्वकर्मपद्धति
 2148 विश्वम्भरवास्तुशास्त्र
 2149 वास्तुमण्डन
 2150 प्रासादमण्डन
 2151 रूपमण्डन
 2152 राजवल्लभशिल्प
 2153 वास्तुशास्त्रशिल्प
 2154 अपराजितसूत्र

- 2155 राजधर्मकौस्तुभ
 2156 खड्गकोशशिल्प
 2157 स्वयंवहशिल्प
 2158 औशनसधनुर्वेद
 2159 राजविजयशिल्प
 2160 पाराशरीयसंहिता
 2161 सिद्धान्तशेखरशिल्प
 2162 मुकुन्दविजयशिल्प

शालिहोत्रप्रकरण

- 2163 नलकृतग्रन्थ सटीक
 2164 अश्वहृदय
 2165 बुद्धिसेनकृत हिन्दुस्थानी
 भाषेचा
 2166 जयदत्तकृत शालिहोत्र
 2167 गणकृत अश्वसारसमुच्चय
 शालिहोत्र
 2168 हयलीलावती शालिहोत्र
 2169 रेवतोत्तरग्रन्थ शालिहोत्र
 2170 नकुलकृतग्रन्थ सटीक
 2171 सहदेवकृत व भोजकृत
 2172 भोजदेवकृत शालिहोत्र
 2173 शालिहोत्र मुनिकृत

मतग्रन्थ

षण्मतदर्शनरहस्यमताचे ग्रन्थ

- 2174 शैव
 2175 वैष्णव
 2176 सौर
 2177 शाक्त
 2178 गाणपत्यमत
 2179 षण्मुखमत
 2180 बौद्धमत
 2181 चार्वाकमत
 2182 जैनमत
 2183 दिगम्बरमत
 2184 कापालिकमत
 2185 बस्तीमत
 2186 महानुभावमत
 2187 विश्वकर्ममत
 2188 विश्वम्भरमत
 2189 पिङ्गलमत
 2190 उत्पलमत
 2191 सयादीपमत
 2192 करिमलमत

सर्वविद्यानिधानकवीन्द्राचार्यसरस्वतीनाम् ।